

02<sup>nd</sup> February, 2024

The Listing Department **BSE Limited** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001 TEL: 91-22-22721233/4 FAX: 91-22-22721919

### Ref. : Company Code No. 531417 MEGACOR

# Sub. : <u>Submission of Copies of press release of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31.12.2023.</u>

#### Dear Sir,

This has reference to the captioned subject in this regard we are enclosing herewith copy of newspaper cuttings of publication of unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31.12.2023.

The above Financial Results were published in the following Newspaper:

1. Business Standard dated February 02, 2024 (Friday) (English) Published from New Delhi (Financial Result Text).

2. Business Standard dated February 02, 2024 (Friday) (Hindi) Published from New Delhi (Financial Result Text).

This is for your information and record please. Kindly acknowledge the receipt of the same.

Thanking you

Yours faithfully,

#### For Mega Corporation Limited

OF Hualan NEW DELH

Surendra Chhalani Director and CFO DIN: 00002747

Encl: As above

#### **Mega Corporation Limited**

Regd. Office: 62, Upper Ground Floor, Okhla Industrial Estate-III, New Delhi-110020 P +91 11 46557134 E info@megacorpltd.com www.megacorpltd.com CIN: L65100DL1985PLC092375 NOTICE BY WAY OF SUBSTTUTED SERVICE UNDER RULE 11 OF NCLAT RULES. 2016 READ WITH ORDER V RULE 20 OF CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908 IN THE NATIONAL COMPANY LAW APPELLATE TRIBUNAL, BENCH-3, AT NEW DELH

VEGAN COLLOIDS LIMITED VS. PUNJAB NATIONAL BANK & ORS. COMPANY APPEAL (AT) (INSOLVENCY) NO. 865 of 2023

1. Bimla Devi Jindal (respondent No. 2), Ex-Director of Vegan Colloids Limited, (Wife and Legal Heir of Late Sh. Bajrang Dass Aggarwal), 123, Vinobha Basti, Sri Ganganaga 335001

2. Kamini Jindal (respondent No. 3), Ex-director of Vegan Colloids Limited, (Daughter and Legal Heir of Late Sh. Bajrang Dass Aggarwal) 123, Vinobha Basti, Sri Ganga Nagar-335001

WHEREAS Mr. Anil Kohli, Liquidator of Vegan Colloids Limited, has filed Company Appeal (AT) (Ins) No. 865 of 2023 under Section 61(1) of IBC, 2016 against order dated 16.06.2023 passed by the Ld. National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench in I.A. No. 758 of 2020 in C.P. (IB) 72/CHD/HRY/2017. Whereas, the Hon'ble Appellate Tribunal, Bench-3, issued notice on all the concerned parties including the above named on 13.07.2023. That vide order dated 12.01.2024 the Hon'ble Appellate Tribunal, Bench-3, has permitted the undersigned to serve the Addressees through substituted service

TAKE NOTICE that the above-captioned matter will now be listed on 26.02.2024 before the Hon'ble National Company Law Appellate Tribunal, Bench-3. You may either appear in person or through your Authorized Representative. Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the Appea

vill be heard and determined in your absence Anil Kohli Liquidator for Vegan Colloids Limited

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्रधिकरण प्लाट संख्या—01, सैक्टर—नॉलेज पार्क—4, ग्रेटर नौएडा सिटी, गौतम बुद्ध नगर (उ०प्र०) सार्वजनिक सूचना

ग्रेटर नौएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण के अर्न्तगत M/s Grand Realtech Limited मूखण्ड संख्या-GH-04B, सेक्टर-12, ग्रेटर नोएडा को दिनांक 06.06.2022 को मानचित्र स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तदोपरान्त विकासकर्ता द्वारा (Group Housing project) का पुनरीक्षित मानचित्र प्रमाण पत्र हेतु दिनांक 10.07.2023 ऑन लाईन के माध्यम से आवेदन किया गया है, जिसका आवेदन संख्या—19271 है। तत्कम में U.P. Apartment Act-2010, Amendment 2016 in Section-4 Sub Section-B के अन्तर्गत परियोजना के आवंटियों से आपत्ति सुझाव आमंत्रित किये जाने का प्रावधान है। इस संबंध में विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्वीकृति मानचित्र एव Declarations as per UP Apartment Act-2010 परीक्षण किसी भी कार्यदिवस में सुबह 9:30 से साय 6 बजे के मध्य नियोजन विभाग में तथा प्रधिकरण की वैबसाईट पर किया जा सकता है ।

अतः उपरोक्त परियोजना के आवटियों द्वारा Sanction Map एव Declarations as per U.P. Apartment Act 2010 के संग्वन्ध में सूचना प्रकाशित करने के 30 दिनों के अन्दर आपत्तियां / सुझाव आमंत्रित की जाती है । उपरोक्त के निहितार्थ अपनी आपत्तियां लिखित रुप में अपने आवटन पत्र, नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर के साथ कार्यालय समय व कार्यदिवस में ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण दूरमाव गम्बर क ताल फावालय ताव क कार्यात्र ते के कार्यात्र के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, मूखण्ड संख्या–1, नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा में स्थित महाप्रबन्धक (नियोजन∕वास्तु0) को सम्बोधित करते हुए सूचना प्रकाशित होने के 30 दिवसों के अन्दर जमा करायी जा सकती है।

महाप्रबन्धक (नियो0⁄वास्तु0) ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्रधिकरण


# ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्रधिकरण प्लाट संख्या—01, सैक्टर—नॉलेज पार्क—4, ग्रेटर नौएडा सिटी, गौतम बुद्ध नगर (उ०प्र०)

सार्वजनिक सूचना


ग्रेटर नौएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण के अर्न्तगत M/s Blessings Homz Private Limited मूखण्ड संख्या–GH-03C, सेक्टर–12, ग्रेटर नोएडा को दिनांक 06.06.2022 को मानचित्र स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तदोपरान्त विकासकर्ता संख्या–19618 है। तत्कम में U.P. Apartment Act-2010, Amendment 2016 in Section-4 Sub Section-B के अन्तर्गत परियोजना के आवंटियों से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जाने का प्रावधान है। इस संबंध में विकासकर्ता द्वारा प्रस्तत स्वीकृति मानचित्र एव Declarations as per UP Apartment Act-2010 परीक्षण किसी भी कार्यदिवस में सुबह 9:30 से साय 6 बजे के मध्य नियोजन विभाग में तथा प्रधिकरण की वैबसाईट पर किया जा सकता है ।


अतः उपरोक्त परियोजना के आंवटियों द्वारा Sanction Map एंव Declarations as per U.P. Apartment Act 2010 के सम्बन्ध में सूचना प्रकाशित करने के 30 दिनों के अन्दर आपत्तियां / सुझाव आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त के निहितार्थ अपनी आपत्तियां लिखित रुप में अपने आवंटन पत्र, नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर के साथ कार्यालय समय व कार्यदिवस में ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, भूखण्ड संख्या−1, नॉलेज पार्क−4, ग्रेटर नौएडा में स्थित महाप्रबन्धक (नियोजन/वास्तु0) को सम्बोधित करते हुए सूचना प्रकाशित होने के 30 दिवसों के अन्दर जमा करायी जा सकती है ।

महाप्रबन्धक (नियो0/वास्तु0) ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्रधिकरण



(As per Appendix IV read with rule 8 (1) of the security interest (Enforcement) Rules.2002 Vhereas, The undersigned being The Authorised Officer of the Bank of Baroda Under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in Exercise of the Power Conferred Under Section 13(12) Read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice Dated 14/11/2023 Calling upon the Borrower M/S KCC Enterprises Prop. Shri Suni Kumar S/O Shri Dev Karan Singh to repay the Amount Mentioned in The Notice Being Rs.23,40,159.29 (RUPEES TWENTY THREE LAKH FOURTY THOUSAND ONE HUNDRED FIFTY NINE AND





DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF SARFAESI ACT 2002 As the loan Account Became NPA therefore The Bank Authorised Officer Under Section 13(2) of Securitisation and Reconstruction of Financia Assets and enforcement of Security interest ACT 2002 had issued 60 day demand notice to the borrowers/Co-Borrowers/Guarantor and given in Assess and endocement of Security interest for 1200c has assessed to day enhance house of the borrowers doe borrowers does not security as given below. As the demand Notice has not been served, therefore the Borrower(s), Guarantor(s), Mortgagor(s) are informed by way of his public notice to deposit the loan amount along with future interest and recovery expenses within 60 days, otherwise under the provisions o ection 13(4) and 14 of the said Act, the Bank's Authorised Officer is free to take possession of the Security as given below

B/O Shastri Nagar, Ajmer Email ID- bo152020@pnb.co.in Mob.- 8003696133

DEMAND NOTICE

S. No.	Borrower/Guarantor Name and Address/ A/c Number	Details of Properties/Address of Secured Assets to be Enforced	Date of Demand Notice	Amount Outstanding	
1.	(1) M/s Pawansut Enterprises (Through Prop. Smt. Geeta Devi W/o Sh. H S Tak)	Equitable mongage of Freperty situated at it no.	23.01.2024	Rs. 9,04,368.00	
	(Borrower) Add: Lohagal Road, Behind Janana Hospital, Pushkar By-pass Road, Ajmer-305007, Also at: 325/29, Nai Basti, Nava Ghar, Gulab Bari, Aimer-305007	309/27 (Old), Narsingpura, jones Ganj, Ajmer- 305001 standing in the name of LL. Sh. Mangi Lal admeasuring Build up area of 2537.50 Sq.Ft.	NPA Date- 29.11.2021	as on 30.09.2023 with Further interest until payment in full	
	(2) Smt. Geeta Devi W/o Sh. H S Tak ( Prop.:M, Ajmer-305007, (3) Smt. Geeta Devi W/o Sh. H 305007, (4) Sh. Harjeet Singh Tak (Guaront Mortgagor), (6) Smt. Geeta Devi W/o H S Tak	(s Pawansut Enterprises) Add: Lohagal Road, Behind S Tak (Prop: IM/s Pawansut Enterprises) Add: 325/2 or), (5) Sh. Kailash Chand S/o Mangi Lal (Legal (Legal hire of L1, Sh. Mangi Lal-Guarontor & Mortg Mortgagor) All are Resi. at: Add: 325/29, Nai Bas	9, Nai Basti, Naya G hire of Lt.Sh. Ma Jagor), (7) Smt. Si	har, Gulab Bari, Ajmer- ngi Lal -Guarontor & ta Devi D/o Mangi Lal	
der pro		in the above demand notice from the concerned b payable in the notice period otherwise the further a For Punjab	ction will be taken i Yours faithf	in accordance with the	
	इंडियन बेंक		n Bank		
	🔺 इलाहाबाद	( A Govt. Of India Undertaking )	HABAD		
	•	Dehradun ph 2713957,2713976 K- IV-A" [See provision to rule 8 (6)]	Branch : H	Haldwani Main	

# SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Symbolic possession of which has been taken by the Authorised Officer of Indian Bank, Haldwani Main branch, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 07.03.2024 for recovery of Rs. 13782578/- (Rupees One Crore Thirty Seven Lakh Eighty Two Thousand Five Hundred Seventy Eight Only) as on 28.01,2024 with further interest, costs, other charges and expenses thereon from 29.01.2024 due to the Indian Bank Haldwani Main branch, Secured Creditor, from

Name & Address of Borrower and Guarantor nd Morte

पंचाल संगठता केंग

ourseb national bank

0

1. AR PVC Pipe Udyog (Borrower), Vill- Ratanpur, Po- Chakalua, Tehsil Kaladhungi, Distt — Nainital.

r), H NO-12/23 sad Pathak (Borrower 8

#### HSIIDC

#### e-Auction Schedule for Allotment of Industrial Plots (Freehold basis) in Mega Food Park Rohtak (under General Category

HSIIDC had opened the registration for participation in e-Auction for allotment of industrial plots in Mega Food Park Rohtak with closing date as 18.01.2024. The schedule of e-Auction for the same is as under :											
Sr. No.	Auction Name/Plot Size Category#	Auction ID	Date of e-Auction	No. of plots on offer							
1	Mega Food Park, IMT Rohtak - 450 sqm*	1303	5.02.2024	1							
2	Mega Food Park, IMT Rohtak - 1800 sqm*	1305	5.02.2024	1							

\*Mega Food Park Rohtak is being set-up/established/developed by HAFED. Marketing and allotment to be undertaken/coordinated by HSIIDC on behalf of HAFED as per HSIIDC allotment norms/policy. Plots would be allotted for setting up Food Processing units only and also governed by norms of Ministry of Food Processing Industries, Government of India (MOFPI), lending bank/institution, HAFED, as applicable from time to time

I) The Round-1 of each e-Auction shall start at 7.00 AM on the scheduled date; ii) The standard closing time of Round-1 of each e-Auction shall be 11.00 AM on the scheduled date. All subsequent rounds shall be of 10 minutes duration, subject to extension as below; iii) There will be unlimited extensions – The auction time of the round(s) will get extended by 10 minutes in case of receipt of any bid in the last 5 minutes; iv) In case the e-auction does not conclude till 9.00 PM, the e-auction will pause at 9.00 PM (the round in progress at 9.00 PM shall continue even after 9.00 PM till its closing) and fresh round shall re-start at 7.00 AM the next day; **v**) The minimum bid increment has been kept at Rs.200/- psm in all categories; **vi**) The H-1 payment shall be scheduled after acceptance of bids by the competent authority, payable within 7 days (168 hours) of scheduling; **vii**) The number of plots indicated above are tentative and HSIIDC shall reserve to itself the right to withdraw any site/category from auction or add any site for auction at any stage without assigning any reason; viii) The HSIIDC shall reserve to itself the right to accept any bid/category or reject any bid/category, even the highest bid at any stage, without assigning any reason

# Wherever the basic minimum infrastructure is yet to be developed, the allotment shall be without offer of possession.

RESERVE PRICE AND BID PRICE ON THE E-AUCTION PORTAL WOULD BE INDICATED ON PER SQUARE METER BASIS

All registered bidders may please note the above for participation in e-Auction on scheduled date and please note that no separate notice shall be sent in this regard. The details of plots on offer can be seen on the e-Auction portal hsiidc.bidx.in and www.hsiidc.org.in

Haryana State Industrial & Infrastructure Deve. Corp. Ltd. Regd. Office: C-13 & 14, Sector-6, Panchkula, Ph. 0172-2590481-83, Website: hsiidc.org.in, E-mail: contactus@hsiidc.org.in HSIIDC

GROUP MEGA CORPORATION LIMITED CIN L65100DL1985PLC092375 Regd.Office: 62, Upper Ground Floor, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020   Ph.: +91 11 46557134 email: info@megacornlid.com, www.megacornlid.com											
email: info@megacorpltd.com, www.megacorpltd.com UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 319T DECEMBER 20 (Rs. in Lakhs except per share (Rs. in Lakhs except per share STANDALONE											
SI.	Particular	s	(	Quarter Ende		Nine Mont	ths Ended	Year Ended			
No.			(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)			
			31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023			
(I)	Total Revenue from operation (Including Other Income)	112.10	85.30	76.79	270.73	241.69	316.99				
(II)	Net Profit/(Loss) for the period Tax & Exceptional Items	7.30	(4.01)	13.16	24.06	53.03	29.71				
(111)	Net Profit/(Loss) for the period (after Exceptional Items)	7.30	(4.01)	13.16	24.06	53.03	29.71				
(IV)	Net Profit/(Loss) for the period after Tax and Exceptional Iten		7.30	(4.01)	13.16	24.06	53.03	22.74			
(V)	Total comprehensive Income [comprising Profit/ (Loss) for t and other comprehensive Inco	he period (after tax)	7.30	(4.01)	13.16	24.06	53.03	25.00			
(VI)	Other Equity							1,400.70			
(VII)	Paid up Equity Capital (FV of	Rs. 1/- each)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
(VIII)	Earning per Equity Share (Face value of Rs. 1 each) Ba	sic (Rs.)	0.01	(0.00)	0.01	0.02	0.05	0.03			
(IX)	Earning per Equity Share (Face value of Rs. 1 each) Di	uted (Rs.)	0.01	(0.00)	0.01	0.02	0.05	0.03			
(Face value of Rs. 1 each) Diluted (Rs.)       Notes:-         1. The above unaudited results, reviewed by the Audit Committee were taken on record, by the Board of Directors in the meeting held on 01st February, 2024.         2. Provision for Taxation & Deferred tax adjustment will be considered at the end of the year.         3. Previous Year/ Qtrs. Have been regrouped/ rearranged, wherever necessary.         For Mega Corporation Limited Sd /-											

Date: 01.02.2024 Place: New Delhi

For Mega Corporation Limited
Sd./-
Surendra Chhalani
(Director & CFO)
DIN:00002747

The Pri Herein Herein Alanua In Gei Prope 23,40 NINE Che B Respe All that Sub-d NINE Che B Respe All that Sub-d NINE Che B Respe Che B Respe	f receipt of the said notice. orrower having failed to repay the an ublic in General That The Undersigner t read with rule 8 of the security Inter <b>iny of the year 2024.</b> The Borrower/C <b>iny of the year 2025.</b> The Borrower Borrower Borrower Borrower Borrower Borrower/C <b>iny of the year 2025.</b> The Borrower Bo	te Immovable Property sisting of residential Plot situated at. (1) Plot no. B- ehsil Phagi, JAIPUR IN THE NAME OF Mr. Sunil ving Area 200.00 sq. Yards within the registration - East - Road 60' Wide West - Plot No. B-12, North - ige, Renwal, Tehsil Phagi, Jaipur Rajasthan IN THE Karan Singh admeasuring Area 200.00 Sq. yards	The specific details of the enumerated below: Details description of the Property No. 1	Bholanath Garden, Haldwani, Distt Nainital-263139 3. Smt Sushma Pathak W/o Late Sh Rajendra Prasad Pathak (Borrower & Guarantor), H No- CA-72, Judge Farm, Mukhani, Haldwani, Distt Nainital- 263139 4. Sh Ashok Kumar Chaudhary s/o Late Sh Laxmi Dutt Chaudhary (Borrower & Guarantor & Mortgagor), Gali No-3, Adarsh Nagar, Mukhani, Haldwani, Distt- Nainital-263139 5. Sh Chandra Mohan Dhaundiyal S/o Sh Gharaballabh Dhaundiyal, (Borrower & Guarantor), H NO-126, Awlakot, Kotabagh, Kaladhungi, Distt-Nainital-263139 6. Sh Sanjay Tandon s/o Sh Rajendra Nath Tandon (Borrower & Guarantor) & Mortgagor), Civil Lines,Near Ram Nath Colony,Budaun,Distt. Budaun, UP property intended to be brought to sale through e-auction mode are All piece and parcel of property (land & building) in the name of Sh Ashok Kumar Chaudhary s/o Late Sh Laxmi Dutt Chaudhary & Smt Sushma Pathak w/o Late Sh Rajendra Prasad Pathak & Shri Ashu Pathak S/o Late Sh Rajendra Prasad Pathak, Land area measuring 6800 Sq. Ft (631.97 Sq mt). bearing Khet no: 130 Min, Situated at Vill- Ratanpur, Tehsil-Kaladhungi, Distt- Nainital,
Plot	the registration sub-district and dist No. B – 11, North - Plot No. B-16 Sout 30-01-2024, Place:- Jaipur	rict Jaipur. Bounded by-East – Road 60' Wide West h - Plot No. B - 18 (Mrs. Shivani Dev ) Authorised Officer, Bank of Baroda		Registered Sale Deed Dated 16.01.2012. The said Deed is registered in Elec Book No-1, Khand-1438, Pages-47-60, Sr No- 239 at office of Sub Registrar 1st, Haldwani, Distt- Nainital (UK), Property bounded as under-East- Rest Lanc of Seller,West- Land of Narayan Singh,North- Road, South- Land of Jagat Singh
			Encumbrances on property, if any	Indian Bank, Haldwani Main
	कार्यपालक अभि	भेयंता का कार्यालय	Reserve Price	Rs. 18.28 Lakh (Rupees Eighteen Lakh Twenty Eight Thousand Only)
		, पथ प्रमण्डल, देवघर	Earnest Money Deposit	Rs. 1.83 Lakh (Rupees One Lakh Eighty Three Thousand Only)
			Bid incremental amount	Rs. 10,000/-
	<u>अल्पकालीन ई–प्रोक्यो</u>	ਤਸ਼ੇਟ ਸ਼ੁਰੂਜ (2nd Call)	Date and time of e-auction	
ई	–पुनर्निविदा प्रसंग संख	या - RCD/DEOGHAR/	at the platform of e-auction	07.03.2024 from 10 :00 AM to 4:00 PM
ई 20	–पुनर्निविदा प्रसंग संख	या - RCD/DEOGHAR/ all) Date :-01.02.2024	at the platform of e-auction Service Provider <u>https://ww</u>	w.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi
र्घर 20 1.	–पुनर्निविदा प्रसंग संख	या - RCD/DEOGHAR/ all) Date :-01.02.2024 पथ प्रमण्डल, देवघर अन्तर्गत वितरा से सरसा मोड़ पथ (भाया कोयरी जमुआ, रंगामाटी, बगदाहा, रघुनाथडीह) (कुल लम्बाई-23.350 कि0मी0) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality)	at the platform of e-auction	k.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi IDIBARPVC1 Plot in the name of Shri Sanjay Tandon situated at mohalla Nekpur, Civil Lines Near Indira Chowk, Pargana & Tehsil- Sadar, Ditrict Badaun measuring 213.54 Sq mt The property is duly Registered with Sub Registrar Badaun Bahi No 1, Zild 6250 pages 1 to 24, Sr No 12201 Date 03.11.2010. Boundaries : East: Plot of Rajesh Dwivedi & 10 ft wide road West: Plot of Ram Prakash Sharma North
1.	–पुनर्निविदा प्रसंग संख 7/2023-24 (2nd C कार्य का नाम	या - RCD/DEOGHAR/ all) Date :-01.02.2024 पथ प्रमण्डल, देवघर अन्तर्गत चितरा से सरसा मोड़ पथ (भाया कोयरी जमुआ, रंगामाटी, बगदाहा, रघुनाथडीह) (कुल लम्बाई-23.350 कि0मी0) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य।	at the platform of e-auction Service Provider <u>https://ww</u> Property ID No. Details description of the	w.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi W.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi Plot in the name of Shri Sanjay Tandon situated at mohalla Nekpur, Civil Lines Near Indira Chowk, Pargana & Tehsil- Sadar, Ditrict Badaun measuring 213.54 Sq mt The property is duly Registered with Sub Registrar Badaun Bahi No 1, Zild 6250 pages 1 to 24, Sr No 12201 Date 03.11.2010. Boundaries : East: Plot
1.	–पुनर्निविदा प्रसंग संख 7/2023-24 (2nd C	पा - RCD/DEOGHAR/ all) Date :-01.02.2024 पथ प्रमण्डल, देवघर अन्तर्गत चितरा से सरसा मोड पथ (माया कोयरी जमुआ, रंगामाटी, बगदाहा, रघुनाथडीह) (कुल लम्बाई–23.350 कि0मी0) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य। रुपये 12,64,96,217.00 (बारह करोड चौसठ लाख छियानबे हजार दो सौ सन्नह	at the platform of e-auction Service Provider <u>https://ww</u> Property ID No. Details description of the Property No. 2	w.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi IDIBARPVC1 Plot in the name of Shri Sanjay Tandon situated at mohalla Nekpur, Civil Lines Near Indira Chowk, Pargana & Tehsil- Sadar, Ditrict Badaun measuring 213.54 Sq mt The property is duly Registered with Sub Registrar Badaun Bahi No 1, Zild 6250 pages 1 to 24, Sr No 12201 Date 03.11.2010. Boundaries : East: Plot of Rajesh Dwivedi & 10 ft wide road West: Plot of Ram Prakash Sharma North : Plot of R N Tandon South: House of R N Tandon.
20	-पुनर्निविदा प्रसंग संख 7/2023-24 (2nd C कार्य का नाम प्राक्कलित राशि (रुपये में)	या - RCD/DEOGHAR/ all) Date :-01.02.2024 पथ प्रमण्डल, देवघर अन्तर्गत चितरा से सरसा मोड़ पथ (माया कोयरी जमुआ, रंगामाटी, बगदाहा, रघुनाथडीह) (कुल लम्बाई-23.350 कि0मी0) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य। रुपये 12,64,96,217.00 (बारह करोड़ चौसठ लाख छियानबे हजार दो सौ सत्रह रुपये मात्र)।	at the platform of e-auction Service Provider <u>https://ww</u> Property ID No. Details description of the Property No. 2 Encumbrances on property, if any	w.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi W.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi Plot in the name of Shri Sanjay Tandon situated at mohalla Nekpur, Civil Lines Near Indira Chowk, Pargana & Tehsil- Sadar, Ditrict Badaun measuring 213.54 Sq mt The property is duly Registered with Sub Registrar Badaun Bahi No 1, Zild 6250 pages 1 to 24, Sr No 12201 Date 03.11.2010. Boundaries : East: Plot of Rajesh Dwivedi & 10 ft wide road West: Plot of Ram Prakash Sharma North : Plot of R N Tandon South: House of R N Tandon. Indian Bank, Haldwani Main
20 1. 2 3.	-पुनर्निविदा प्रसंग संख 7/2023-24 (2nd C कार्य का नाम प्राक्कलित राशि (रुपये में) कार्य समाप्ति की अवधि	या - RCD/DEOGHAR/ all) Date :-01.02.2024 पथ प्रमण्डल, देवघर अन्तर्गत चितरा से सरसा मोड़ पथ (माया कोयरी जमुआ, रंगामाटी, बगदाहा, रघुनाथडीह) (कुल लम्बाई-23.350 कि0मी0) का राईडिंग वर्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य। रुपये 12,64,96,217.00 (बारह करोड़ चौसठ लाख छियानबे हजार दो सौ सत्रह रुपये मात्र)। 06 (छ) माह।	at the platform of e-auction Service Provider <u>https://ww</u> Property ID No. Details description of the Property No. 2 Encumbrances on property, if any Reserve Price	w.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi W.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi IDIBARPVC1 Plot in the name of Shri Sanjay Tandon situated at mohalla Nekpur, Civil Lines Near Indira Chowk, Pargana & Tehsil- Sadar, Ditrict Badaun measuring 213.54 Sq mt The property is duly Registered with Sub Registrar Badaun Bahi No 1, Zild 6250 pages 1 to 24, Sr No 12201 Date 03.11.2010. Boundaries : East: Plot of Rajesh Dwivedi & 10 ft wide road West: Plot of Ram Prakash Sharma North : Plot of R N Tandon South: House of R N Tandon. Indian Bank, Haldwani Main Rs. 53.82 Lakh (Rupees Fifty Three Lakh Eighty Two Thousand Only)
20 1. 2 3. 4.	-पुनर्निविदा प्रसंग संख 7/2023-24 (2nd C कार्य का नाम प्राक्कलित राशि (रुपये में) कार्य समाप्ति की अवधि निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	पा - RCD/DEOGHAR/ all) Date :-01.02.2024 पथ प्रमण्डल, देवघर अन्तर्गत चितरा से सरसा मोड़ पथ (भाया कोयरी जमुआ, रंगामाटी, बगदाहा, रघुनाथडीह) (कुल लम्बाई–23.350 कि0मी0) का राईडिंग वर्गालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य । रुपये 12,64,96,217.00 (बारह करोड़ चौसठ लाख छियानबे हजार दो सौ सत्रह रुपये मात्र) । 06 (छ) माह । 16.02.2024 (12:00 बजे दिन तक)	at the platform of e-auction Service Provider <u>https://ww</u> Property ID No. Details description of the Property No. 2 Encumbrances on property, if any Reserve Price Earnest Money Deposit Bid incremental amount Date and time of e-auction at the platform of e-auction	w.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi W.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi IDIBARPVC1 Plot in the name of Shri Sanjay Tandon situated at mohalla Nekpur, Civil Lines Near Indira Chowk, Pargana & Tehsil- Sadar, Ditrict Badaun measuring 213.54 Sq mt The property is duly Registered with Sub Registrar Badaun Bahi No 1, Zild 6250 pages 1 to 24, Sr No 12201 Date 03.11.2010. Boundaries : East: Plot of Rajesh Dwivedi & 10 ft wide road West: Plot of Ram Prakash Sharma North : Plot of R N Tandon South: House of R N Tandon. Indian Bank, Haldwani Main Rs. 53.82 Lakh (Rupees Fifty Three Lakh Eighty Two Thousand Only) Rs. 10,000/- 07.03.2024 from 10 :00 AM to 4:00 PM
20 1. 2 3. 4. 5.	-पुनर्निविदा प्रसंग संख 7/2023-24 (2nd C कार्य का नाम प्राक्कलित राशि (रुपये में) कार्य समाप्ति की अवधि निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय वेबसाईट पर निविदा प्रकाशित होने की तिथि एवं समय	पा - RCD/DEOGHAR/ all) Date :-01.02.2024 पथ प्रमण्डल, देवघर अन्तर्गत चितरा से सरसा मोड़ पथ (भाया कोयरी जमुआ, रंगामाटी, बगदाहा, रघुनाथडीह) (कुल लम्बाई–23.350 कि0मी0) का राईडिंग ववालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य। रुपये 12,64,96,217.00 (बारह करोड़ चौसठ लाख छियानबे हजार दो सौ सत्रह रुपये मात्र)। 06 (छ:) माह। 16.02.2024 (12:00 बजे दिन तक) 03.02.2024 (10:30 बजे पूर्वाहन)	at the platform of e-auction Service Provider <u>https://ww</u> Property ID No. Details description of the Property No. 2 Encumbrances on property, if any Reserve Price Earnest Money Deposit Bid incremental amount Date and time of e-auction at the platform of e-auction Service Provider <u>https://ww</u>	w.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi W.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi Plot in the name of Shri Sanjay Tandon situated at mohalla Nekpur, Civil Lines Near Indira Chowk, Pargana & Tehsil- Sadar, Ditrict Badaun measuring 213.54 Sq mt The property is duly Registered with Sub Registrar Badaun Bahi No 1, Zild 6250 pages 1 to 24, Sr No 12201 Date 03.11.2010. Boundaries : East: Plot of Rajesh Dwivedi & 10 ft wide road West: Plot of Ram Prakash Sharma North : Plot of R N Tandon South: House of R N Tandon. Indian Bank, Haldwani Main Rs. 53.82 Lakh (Rupees Fifty Three Lakh Eighty Two Thousand Only) Rs. 10,000/- 07.03.2024 from 10 :00 AM to 4:00 PM w.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi
20 1. 2 3. 4. 5.	-पुनर्निविदा प्रसंग संख 7/2023-24 (2nd C कार्य का नाम प्राक्कलित राशि (रुपये में) कार्य समाप्ति की अवधि निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय वेबसाईट पर निविदा प्रकाशित होने की तिथि एवं समय निविदा आमंत्रित करने वाले का	या - RCD/DEOGHAR/ all) Date :-01.02.2024 पथ प्रमण्डल, देवघर अन्तर्गत चितरा से सरसा मोड़ पथ (भाया कोयरी जमुआ, रंगामाटी, बगवाहा, रघुनाथडीह) (कुल लम्बाई–23.350 कि0मी0) का राईडिंग वर्गालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य । रुपये 12,64,96,217.00 (बारह करोड़ चौसठ लाख छियानबे हजार दो सौ सत्रह रुपये मात्र)। 06 (छ:) माह। 16.02.2024 (12:00 बजे दिन तक) 03.02.2024 (10:30 बजे पूर्वाहन) कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पथ निर्माण	at the platform of e-auction Service Provider <u>https://ww</u> Property ID No. Details description of the Property No. 2 Encumbrances on property, if any Reserve Price Earnest Money Deposit Bid incremental amount Date and time of e-auction at the platform of e-auction Service Provider <u>https://ww</u> Property ID No.	w.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi W.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi Plot in the name of Shri Sanjay Tandon situated at mohalla Nekpur, Civil Lines Near Indira Chowk, Pargana & Tehsil- Sadar, Ditrict Badaun measuring 213.54 Sq mt The property is duly Registered with Sub Registrar Badaun Bahi No 1, Zild 6250 pages 1 to 24, Sr No 12201 Date 03.11.2010. Boundaries : East: Plot of Rajesh Dwivedi & 10 ft wide road West: Plot of Ram Prakash Sharma North : Plot of R N Tandon South: House of R N Tandon. Indian Bank, Haldwani Main Rs. 53.82 Lakh (Rupees Fifty Three Lakh Eighty Two Thousand Only) Rs. 10,000/- 07.03.2024 from 10 :00 AM to 4:00 PM w.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi IDIBARPVC2
20 1. 2 3. 4.	-पुनर्निविदा प्रसंग संख 7/2023-24 (2nd C कार्य का नाम प्राक्कलित राशि (रुपये में) कार्य समाप्ति की अवधि निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय वेबसाईट पर निविदा प्रकाशित होने की तिथि एवं समय	पा - RCD/DEOGHAR/ all) Date :-01.02.2024 पथ प्रमण्डल, देवघर अन्तर्गत चितरा से सरसा मोड़ पथ (भाया कोयरी जमुआ, रंगामाटी, बगदाहा, रघुनाथडीह) (कुल लम्बाई–23.350 कि0मी0) का राईडिंग ववालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य। रुपये 12,64,96,217.00 (बारह करोड़ चौसठ लाख छियानबे हजार दो सौ सत्रह रुपये मात्र)। 06 (छ:) माह। 16.02.2024 (12:00 बजे दिन तक) 03.02.2024 (10:30 बजे पूर्वाहन)	at the platform of e-auction Service Provider <u>https://ww</u> Property ID No. Details description of the Property No. 2 Encumbrances on property, if any Reserve Price Earnest Money Deposit Bid incremental amount Date and time of e-auction at the platform of e-auction Service Provider <u>https://ww</u> Property ID No. Bidders are advised to visit th service provider MSTC Ltd to No. 033-23400020/2340002	w.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi IDIBARPVC1 Plot in the name of Shri Sanjay Tandon situated at mohalla Nekpur, Civil Lines Near Indira Chowk, Pargana & Tehsil- Sadar, Ditrict Badaun measuring 213.54 Sq mt The property is duly Registered with Sub Registrar Badaun Bahi No 1, Zild 6250 pages 1 to 24, Sr No 12201 Date 03.11.2010. Boundaries : East: Plot of Rajesh Dwivedi & 10 ft wide road West: Plot of Ram Prakash Sharma North : Plot of R N Tandon South: House of R N Tandon. Indian Bank, Haldwani Main Rs. 53.82 Lakh (Rupees Fifty Three Lakh Eighty Two Thousand Only) Rs. 10,000/- 07.03.2024 from 10 :00 AM to 4:00 PM w.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi IDIBARPVC2 ne website (www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi) of our e auctior participate in online bid. For Technical Assistance Please call MSTC HELPDESI 1/23400022 and other help line numbers available in service providers help
20 1. 2 3. 4. 5. 6 7 8.	-पुनर्निविदा प्रसंग संख 7/2023-24 (2nd C कार्य का नाम प्राक्कलित राशि (रुपये में) कार्य समाप्ति की अवधि निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय वेबसाईट पर निविदा प्रकाशित होने की तिथि एवं समय निविदा आमंत्रित करने वाले का नाम एवं पता प्रोक्युरमेंट अधिकारी का सम्पर्क नम्बर ई-प्रोक्युरमेंट सेल का हेल्पलाईन नम्बर	या - RCD/DEOGHAR/ all) Date :-01.02.2024 पथ प्रमण्डल, देवघर अन्तर्गत चितरा से सरसा मोड़ पथ (भाया कोयरी जमुआ, रंगामाटी, बगदाहा, रघुनाथडीह) (कुल लम्बाई–23.350 कि0मी0) का राईडिंग ववालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य। रुपये 12,64,96,217.00 (बारह करोड़ चौसठ लाख छियानबे हजार दो सौ सत्रह रुपये मात्र)। 06 (छ:) माह। 16.02.2024 (12:00 बजे दिन तक) 03.02.2024 (10:30 बजे पूर्वाह्न) कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, देवघर।	at the platform of e-auction Service Provider <u>https://ww</u> Property ID No. Details description of the Property No. 2 Encumbrances on property, if any Reserve Price Earnest Money Deposit Bid incremental amount Date and time of e-auction at the platform of e-auction Service Provider <u>https://ww</u> Property ID No. Bidders are advised to visit th service provider MSTC Ltd to No. 033-23400020/2340002 desk. For Registration status status please contact <u>ibapifi</u> and auction terms and cond	w.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi         IDIBARPVC1         Plot in the name of Shri Sanjay Tandon situated at mohalla Nekpur, Civil Lines         Near Indira Chowk, Pargana & Tehsil- Sadar, Ditrict Badaun measuring 213.54         Sq mt The property is duly Registered with Sub Registrar Badaun Bahi No 1,         Zild 6250 pages 1 to 24, Sr No 12201 Date 03.11.2010. Boundaries : East: Plot         of Rajesh Dwivedi & 10 ft wide road West: Plot of Ram Prakash Sharma North         : Plot of R N Tandon South: House of R N Tandon.         Indian Bank, Haldwani Main         Rs. 53.82 Lakh (Rupees Fifty Three Lakh Eighty Two Thousand Only)         Rs. 5.38 Lakh (Rupees Five Lakh Thirty Eight Thousand Only)         Rs. 10,000/-         07.03.2024 from 10 :00 AM to 4:00 PM         w.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi         IDIBARPVC2         ne website (www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)         of our e auctior         participate in online bid. For Technical Assistance Please call MSTC HELPDESI         1/23400022 and other help line numbers available in service providers help         m@mstcecommerce.com.for property details and photograph of the propertitions please visit: https://ibapi.in
20 1. 2 3. 4. 5. 6 7 8. नोट -	- पुनर्निविदा प्रसंग संख 7/2023-24 (2nd C कार्य का नाम प्राक्कलित राशि (रुपये में) कार्य समाप्ति की अवधि निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय वेबसाईट पर निविदा प्रकाशित होने की तिथि एवं समय निविदा आमंत्रित करने वाले का नाम एवं पता प्रोक्युरमेंट अधिकारी का सम्पर्क नम्बर ई-प्रोक्युरमेंट सेल का हेल्पलाईन नम्बर -	या - RCD/DEOGHAR/ all) Date :-01.02.2024 पथ प्रमण्डल, देवघर अन्तर्गत चितरा से सरसा मोड़ पथ (भाया कोयरी जमुआ, रंगामाटी, बगदाहा, रघुनाथडीह) (कुल लम्बाई–23.350 कि0मी0) का राईडिंग ववालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य। रुपये 12,64,96,217.00 (बारह करोड़ चौसठ लाख छियानबे हजार दो सौ सत्रह रुपये मात्र)। 06 (छ:) माह। 16.02.2024 (12:00 बजे दिन तक) 03.02.2024 (10:30 बजे पूर्वाहन) कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, देवघर। 06432-299919	at the platform of e-auction Service Provider <u>https://ww</u> Property ID No. Details description of the Property No. 2 Encumbrances on property, if any Reserve Price Earnest Money Deposit Bid incremental amount Date and time of e-auction at the platform of e-auction Service Provider <u>https://ww</u> Property ID No. Bidders are advised to visit th service provider MSTC Ltd to No. 033-23400020/2340002 desk. For Registration status status please contact <i>ibapifi</i> and auction terms and cond please contact help line num	w.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi IDIBARPVC1 Plot in the name of Shri Sanjay Tandon situated at mohalla Nekpur, Civil Lines Near Indira Chowk, Pargana & Tehsil- Sadar, Ditrict Badaun measuring 213.54 Sq mt The property is duly Registered with Sub Registrar Badaun Bahi No 1, Zild 6250 pages 1 to 24, Sr No 12201 Date 03.11.2010. Boundaries : East: Plot of Rajesh Dwivedi & 10 ft wide road West: Plot of Ram Prakash Sharma North : Plot of R N Tandon South: House of R N Tandon. Indian Bank, Haldwani Main Rs. 53.82 Lakh (Rupees Fifty Three Lakh Eighty Two Thousand Only) Rs. 10,000/- 07.03.2024 from 10 :00 AM to 4:00 PM w.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi IDIBARPVC2 ne website (www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi) of our e auction participate in online bid. For Technical Assistance Please call MSTC HELPDESI 1/23400022 and other help line numbers available in service providers helg is with MSTC Ltd. please contact ibapip@mstcecommerce.com} and for EMI m@mstcecommerce.com.For property details and photograph of the property

#### NORTHERN RAILWAY 0 NOTICE FOR E-AUCTION rit Mahotsay

Senior Divisional Commercial Manager/Freight, Delhi Division, Northern Railway, in terms of Railway Board letter no. 2022/TC(FM)/10/04 dated 13.06.2022, invites bids through e-Auction (www.ireps.gov.in) for leasing of parcel space of SLR compartments and Parcel Vans (on round trip basis) for a period of two years as per detail and schedule given below:-

S. No.	Date & time of e-Auction	Assets to be auctioned							
1.	02.02.2024 at 10:30 am	12191 (F1, F2 & R1), 12457 (F1, F2 & R1), 12572 (F1), 12918 (F1), 1404 (R1), 14316 (F1), 14507 (F1, F2 & R1), 15035 (F1 & R1), 15657 (F1), 1933 (F1), 20914 (F1), 20946 (F1), 20958 (F1), 22429 (F1), 22463 (F1), 22482 (F1)							
2.	05.02.2024 at 10:30 am	22168 (F1), 20473 (F1), 20409 (F1, 14731 (F1), 20473 (R1), 22950 (F1) 15060 (F1), 12066 (F1), 12428 (F1), 14731 (R1), 22168 (F2), 15060 (R1) 22986 (F1), 13430 (F2), 20488 (F1)							
3.	06.02.2024 at 10:30 am	12005 (F1), 12038 (F1), 12148 (R1), 12481 (F1, F2 & R1), 14714 (F1), 2242 (F1, F2 & R1), 22438 (F1)							
4.	07.02.2024 at 10:30 am	01 LVPH (24 tonnes) on round trip basis in each train - 12226/12225 12236/12235, 12284/12283, 12425/12426, 12432/12431, 12442/12441 12445/12446, 12488/12487, 14033/14034, 22412/22411, 22420/22415 22428/22427, 22429/22430, 22434/22433, 22460/22459 & 01 VP (2 tonnes) on round trip basis in train number: 22418/22417							
5.	09.02.2024 at 10:30 am	12284 (F1), 14014 (F1), 14303 (F1 & R1), 14305 (F1 & R1), 14331 (F1, F2 R1), 14545 (F1, F2 & R1), 22168 (R1), 22404 (F1), 22418 (F1), 22654 (F1)							
6.	12.02.2024 at 10:30 am	12011 (F1), 12017 (F1), 12029 (F1), 12040 (F1), 12148 (F1 & F2), 1243 (F1), 12455 (F1), 14041 (F1), 14553 (F2), 15035 (F2), 22454 (F1, F2 & R1 22461 (F1)							
7.	13.02.2024 at 10:30 am	04304 (F1, F2 & R1), 12013 (F1), 12015 (F1), 12031 (F1), 12448 (F1 12459 (F1), 12986 (F1), 22414 (F1), 22472 (F1, F2 & R1), 20502 (F1), 22806 (F1)							
8.	14.02.2024 at 10:30 am	12045 (F1), 12265 (F), 12754 (F1), 14152 (F1), 14164 (F1), 14681 (F1 20938 (F1 & R1), 22401 (F1)							
9.	15.02.2024 at 10:30 am	12463 (F1), 12584 (F1), 14035 (F1, F2 & R1), 14212 (F1), 14521 (F1, F2 & R1), 14553 (R1)							
ntere ( <u>e-Au</u> value Secu these disco	sted bidders ar action leasing a to be deposite rity Deposit. <b>3.</b> contracts a ntinuation/con	For more information, requirement and various aspects regarding these e-Auctions e advised to visit <u>https://www.ireps.gov.in/html/helpdesk/learning_centre.htm</u> <u>section</u> ). <b>2. Earnest Money Deposit (EMD) : 5%</b> of the total contractual bi ed online during the auction. EMD of the successful bidder will be retained a Railway Administration reserves the full and absolute rights to short terminat at any point of time and/or for taking any decision regarding th itinuation of these contracts with modified/additional terms and condition e continuation/discontinuation of these trains or commencement of new trai							
servi	0 1	338/2024							

ERVING CUSTOMERS WITH A SMILE





अंचल कार्यालय : गाजियाबाद अंचल,	PUBLIC NOTICE	एल्डिको रि	यल एस्टेट	लिमिटे	द	आनंद राठी ग्लोबल फाइनैंस लि. एक्सप्रेस जोन, ए विंग, 10वीं मंजिल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ओबेराय मॉल के तिरछा विपरीत, गोरेगाँव (ई), मुम्बई 4000063
रेक ऑफ इंडिया Bank of India BOI 🗡 पताः 32-बी, सेक्टर-62, नोएडा-201307	I, Mrs.Kailash Arora, D/o Late Shri Bakhat Ram. 23/503. Eastend Apartments.	पंजीकृत कार्यालय : 2 जिला केन्द्र	01–212, दूसरी मंजि	ाल, स्प्लेंडर प	ोरम,	मैसर्स एक्युरेट इंजी. वर्क्स कब्जा सूचना संदर्भ सं.: एपीपीएल00005192
[नियम 8(1) देखें] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभुतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभुति हित अधिनियम	Mayur Vihar Ph-1 (Extn.), Delhi110096,			-110025		पुछि, <b>आनंद राठी रखेतव फाइर्डन लिगि</b> र्दे के अधिकृत अशिकारी द्वारा प्रतिमुलिकरण एवं लिगीय संपरिप्रों के पुनर्शनत लग्ना प्रतिमुलि हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) के अधीन तथा प्रतिमुलि हित प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित यारा 13(12) के अंतर्गत प्रदन शकियों के प्रयोग के तहत प्रतिमुलितरण एवं विशीय संपत्तियों के पुनर्गनन तथा प्रतिमुलि हित प्रवर्तन अधीनेयम, 2002 की धारा 13 की उपन्थारा 2 के अधीन <b>मांग सुबना (विरण</b> मी <b>वे प्रतिम के प्रत्न प्रतिम</b> की <b>क्र क्र रा</b>
के प्रवर्तन के <b>बैंक ऑफ इंडिया महरौली शाखा</b> का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन	inform that the Original Allotment Letter, Possession Letter and Possession Slip		ार्वजनिक नोटिस	<u> </u>		जिसे बाद में मांग सुनना कहा गंगा है) जारी किया गया था, जिसमें कर्कदार (विवरण नीचे सारणी) में विशेष कर में से कर्जदार कहा गया है) को मांग सुराना की प्रांति की तारीख से 60 दिगों के अंदर मांग सुराना में उत्सरित रकम के साथ खप रवाण की अनुवेधकीय दर पर जागे एवं मतिया के व्याज की रकम के साथ <b>एउमल्पिकएस</b> हारा मांग सुराना की तारीस से मुगतान की तारीस क्यांअवधा बदायों की वारीख तक लागल एवं मुख्क क्या अन्य मुक्के दक्ष (वी कोई ही) (जिसे बाद ब
नियमावली 2002 (2002 का 54) के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत शक्तियो वे अंतर्गत <b>उयारकर्ता– श्रीमती अलका चौघरी पत्नी स्वर्गीय प्रवीण कुमार</b> (मृतक उयारकर्ता स्वर्गीय प्रवीण	issued by Eastend Apartments CGHS Ltd	एतद्दवारा सूचित किया जाता है नोएडा, उत्तर प्रदेश स्थित कंप				में बकाया रकम कहा गया है) बुकता करने को कहा गया है। कर्जदारों तथा लह-कर्जदारों द्वारा बकाया रकम का भुगतान करने में असफल होने के कारण एतदद्वारा यह सुचना विशेष रूप से यहां नीचे उल्लेखित कर्जदार एवं आम तौर पर
कुमार पुत्र श्री सतवीर सिंह की संपत्ति के कानूनी उत्तराधिकारी) (उधारकर्ता- बंधककर्ता), मकान नं. 99सी	lost/stolen on 01 09 2009 and is not	पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधि				जन सावारण को दी जाती है कि प्रतिमुत्तिकरण गया दितीय सम्मानियों के पुनर्भारन गया प्रतिमूर्ति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की घारा 13 की उप घारा (4) के साथ पठित प्रतिमूर्ति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अधीन प्रदत्त व्रक्तियों के प्रयोग के तहत अधीवस्तावार्डी प्रया प्रत्याम अधिनियों पंता की मांग वचना के अंतर्भत उल्लेख किया मध्य थे। पेप्र प्रतिकास्तक कब्जा कर लिया गया है।
गांव- महरौली, एनएच-24, गाजियाबाद यूपी-201002 (रिहायशी पता) और फ्लैट नं. के-943, भूतल संजय नगर, सेक्टर-23, गाजियाबाद, यू.पी 201002 (संपत्ति का पता) और गारंटर- श्री अरविंद	traceable by my dest efforts. I have	मंजूरी दे दी गई है। पर्यावरण म	ांजूरी पत्र की एक प्रति	। एसईआईएए	के कार्यालय,	विशेष तौर पर कर्जदार तथा सह-कर्जेदार तथा आम तौर पर जन साधारण को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति/प्रत्यामूत आस्तियों से संबंधित कोई भी सौदा न करें तथा इस संपत्ति/प्रत्यामूत आस्तियों से संबंधित कोई भी सौदा <b>बकाया रकम</b> (यहां नीचे विशेष रूप से उल्सेखित है) के साथ उस पर व्याज की अनुकंपकीय दर पर आगे एवं भविष्य
चौथरी पुत्र श्री सतवीर सिंह (गारंटर), मकान नं. 99सी, गांव-महरौली, एनएच-24, गाजियाबाव यूपी-201002	already lodged a Lost Report, Vide LR No:1384250/2024 Dated 27.01.2024 for	पर्योवरण निदेशालय, विनीत उपलब्ध है।	खंड—1, गोमती न	गर, लखनऊ-	-226010 में	के व्याज की रकम के साथ <b>एआरजीएफएल</b> हारा भुगतान की तरीख तथा/अथवा वसूली की तारीख तक लाल एवं शुल्क तथा अन्य भुगतेष रकम (यदि कोई हो) के लिए <b>आनंद</b> रारी रजोबल काइनैंस लिमिटेंड के भगर का विषय होगा। प्रत्याभुत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार का व्यान अधिनियम की घारा 13 की उप- धारा (8) के प्रावचानी की और आवर्षित किया जाता है।
थूपा-201002 <b>उधारकर्ता- श्रीमती अलका चौधरी पत्नी स्वर्गीय प्रवीण कुमार</b> (मृतक उधारकर्ता स्वर्गीय प्रवीण कुमार पुत्र श्रं	the loss of above said original documents of the flat Contact Mrs. Kailash Arora	रथान्य हो स्थान : नई दिल्ली	एल्डिको रियत	न एस्टेट लिमि		कर्जदार (I) का नाम एवं पताः मैसर्स एक्युरेट इंजी. यक्स पताः एक59-60, साइट 2, तोनी रोड इंडस्ट्रियल एरिया मोहन नगर गाजियाबाद-201007
सतवीर सिंह की संपत्ति के कानूनी उत्तराधिकारी) (उधारकर्ता-बंधककर्ता), निवासीः मकान नं. 99सी, गांव- महरौली, एनएघ-24, गाजियाबाद यूपी-201002 (रिहायशी पता) और फ्लैट नं. के-943, भुतल, संजय	Email id : klic, arora@gmail.com	दिनांकः 02.02.2047		;	हस्ता∕− हंपनी सचिव	सह-कर्जवार ()) का नाम एवं पताः - 1, भी इकमाल हैदर 2. श्री सैयद सलीम हैदर नळवी 3. श्रीमली कनीज कातमा पत्ताः नं. 3.7161. संसदर-२. हिसवामी कॉलोनी, ताजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005, भारत
नगर, सेक्टर-23, गाजियाबाद, यू.पी 201002 (संपत्ति का पता) और गारंटर- श्री अरविंद चौथरी पुत्र	r l					मांग सूचना के अनुसार बकावा रकम साथ में लागू आगे के व्याजः रु. 1,09,09,888/- (रुपये एक करोड़ नी लाख नी हजार आद सी अठासी मात्र)
श्री सतवीर सिंह (गारंटर), मकान नं. 99सी, गांव-महरौली, एनएच-24, गाजियाबाद यूपी-201002 के मांग सचना दिनांक <b>07.11.2023</b> को जारी किया था जिसमें सुचना में उल्लेखित राशि <b>5. 18,60,140.1</b> 6						मांग सूचना की तारीख आरजेशहूँ 14.00% 16 नवम्बर, 2023 बकाया मूलधन 10.176,734 लंबिस ईएमआई रकम 548,676
(रु. अद्वारह लाख साठ हजार एक सौ चालीस और पैसे सोलह) दिनांक 07.11.2023 तक और भविष्य क	r					
<b>ब्याज, लागत, खर्चे एवं अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि सड़ित</b> उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिने के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।						कब्जा की तारीख वैधानिक सुर्खे 264,240 1 फरवरी, 2024 ठीएसआरए जमा -137,169
कर्जदार/गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये है, इसलिए एतद्बारा कर्जदार/गारंटर तथ						प्रत्याभूत सम्पत्ति का विवरणः- सम्पत्ति का विवरणः सेक्टर-२, रेसिडेंसियल कॉलोनी, राजेन्द्र नगर, गाजियवाद तहसील एवं जिला गाजियावाद, उ.प. में स्थित कुल 139.40 वर्ग मीटर परिमाप क्षेत्रफल का रिहायसी मकान नं, 3/1611 पूर्व में- मकान नं, 3/185
आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों वे		ग्रेटर नौएडा औ	राोतित्व विव	त्राञ्च राष्ट्रिय		। उष्ठ मण वार भाषभा वात्रभल का रहावयां मकान न. उगाठा। धूब म∶ मकान न. उगाठा। पांचिम में: 30 फीट चौबी सड़क उत्तर में: मकान नं. 3/162 दक्षिण में: मकान नं. 3/160 दिनांक: 1 फरवरी, 2024 स्थानः दिल्ली अधिकृत अधिकारी (आनंद राठी ग्लोबल फाइनैंस लिमिटेड)
इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक <b>30.01.2024</b> को लिया है। विशेष रूप से कर्जदार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने वे	पंजीकत कार्यालयः कम्पीटेंट हाउस, एफ-14,	प्लाट संख्या—01, सैक्ट	र—नॉलेज पार्क—4,	ग्रेटर नौएडा		
लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, महरौली शाखा	CIN: L34102DL1985PLC020668 दूरमाषः 011-45700000	गौत	म बुद्ध नगर (उ०प्रव	)		
गाजियाबाद हापुङ बाई पास रोड एनएच-24, महरौली, गाजियाबाद यू.पी. – 201002 के प्रभार वास्ते रु 18,60,140.16 (ठ. अद्वारह लाख साठ हजार एक सौ चालीस और पैसे सोलह) विनांक 07.11.2023 तव	इंमेलः cs@competent-maruti.com		र्वजनिक सूचना			This is a Public Announcement for information purpose only and does not constitute an offer or an invitation o recommendation to purchase, to hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document.
और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे एवं अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।	ररूचन। एतददारा सचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभति	ग्रेटर नौएडा औधोगिक विका Limited भूखण्ड संख्या–GH-	04B, सेक्टर—12, र	टिर नोएडा	को दिनांक	
उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों वे मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।	एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सुचीकरण विनियम,	06.06.2022 को मानचित्र स्वीव द्वारा (Group Housing project	ृति प्रदान की गयी थ	गि। तदोपरान्त	विकासकर्ता	<b>SKIPPER</b> SKIPPER LIMITED
अचल संपत्ति का विवरण	2015) के विनियम 29, 33, 47 तथा अन्य किसी भी विनियम, यदि लागू है, के अनुपालन के तहत	10.07.2023 ऑन लाईन के मा	ध्यम से आवेदन किर	ग गया है, जिन	तका आवेदन	
सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी सम्पत्ति जोकि के-943, भूतल, (बिना छत के अधिका-	31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही तथा	संख्या—19271 है। तत्कम में Section-4 Sub Section-B के	अन्तर्गतं परियोजना व	रु आवंटियों र	ने आपत्ति /	Corporate Identity Number : L40104WB1981PLC033408 Registered Office : 3A, Loudon Street, 1st Floor, Kolkata - 700017; Telephone No. : (033) 2289 5731/ 5732 For No. : (033) 2280 5731/ 5732
के), सैक्टर-23, ब्लॉक के, संजय नगर, गाणियाबाद, यू.पी-201001 में स्थित, क्षेत्रफल 44.36 वर्ग. मी. यह सम्पत्ति स्वर्गीय प्रवीण कुमार पुत्र श्री सतवीर सिंह (उचारकर्ता-बंधककर्ता) के नाम पर है, चीहदी: उत्त	परिणामों सहित अन्य विषयों पर विचार करने	सुझाव आमंत्रित किये जाने क प्रस्तूत स्वीकृति मानचित्र एंव				Fax No.: (033) 2289 5733; Contact Person: Mrs. Anu Singh (Company Secretary & Compliance Officer) E-mail id: anu.singh@skipperlimited.com; Website: www.skipperlimited.com
में - मकान नं. के-948, दक्षिण में - मकान नं. के-942, पूरब में - मकान नं. के-954, पश्चिम में - 25 फीट चौडी रोड	बठक शुक्रवार, 9 फरवरा, 2024 का नइ दिल्ला म	परीक्षण किसी भी कार्यदिवस	में सुबह 9:30 से सांग	य 6 बर्ज के म		
दिनांक : 30.01.2024, स्थान : नोएडा प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिय		विभाग में तथा प्रधिकरण की वै अतः उपरोक्त पा	रेयोजना के आंवटिय	ंद्वारा Sanct	on Map एंव	(THE "LETTER OF OFFER" / "LOF") AND THE ABRIDGED LETTER OF OFFER (THE "ALOF") NOTICE TO INVESTORS (THE "CORRIGENDUM-CUM-ADDENDUM")
अंचल कार्यालय : गाजियाबाद अंचल,	हस्ता/- स्थानः नई दिल्ली रवि अरोड़ा	Declarations as per U.P. Apa करने के 30 दिनों के अन्दर आ				Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it !!!
र्वे ऑफ इंडिया BOI 🗡 पताः 32-बी, सेक्टर-62, नोएडा-201307	दिनांक : 01.02.2024 कंपनी सचिव	के निहितार्थ अपनी आपत्तियां दरभाष नम्बर के साथ कार्याल	लिखित रुप में अपने	आवंटन पत्र, न	ाम, पता एवं	ASBA* *Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking
[नियम 8(1) देखें] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)	1	के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय,	भूखण्ड संख्या–1, नॉ	लेज पार्क–4,	ग्रेटर नौएडा	the fund in the bank account, investors can avail the same. now available in ASBA f For details, check section on ASBA below. retail individual investor
जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के <b>बैंक ऑफ इंडिया भंगेल एसएसआई शाखा</b> का प्राधिकत अधिकारी होने तथा प्रतिभुतिहित		में स्थित महाप्रबन्धक (नियोर प्रकाशित होने के 30 दिवसों के	जन∕वास्तु0) को स अन्दर जमा करायी ज	म्बोधित करते 1 सकती है	हुए सूचना	For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and Abridged Letter of Offer and also please refer to the section "Process of making an application in the issue-
(प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का 54) के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदर	r			प्रबन्धक (निय		Making of Application through ASBA process" beginning on page no. 207 of the LOF.
शक्तियो के अंतर्गत उचारकर्ता– श्री परीक्षित महेंद्र पुत्र श्री दिलीप कुमार महेंद्र (उचारकर्ता) और गारंटर– ई दिलीप कुमार महेंद्र पुत्र श्री रघुबीर सिंह महेंद्र (गारंटर–बंघकर्क्ता), डी–70, सेक्टर–30, नोएडा, गौतम			ग्रेटर नाएँडा आ	धागिक विका	१ प्राधकरण	RIGHTS ISSUE OF UP TO 1,02,67,021 PARTLY PAID-UP RIGHT EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ RUPEE ONE ONLY) EACH OF OUR COMPANY (THE "EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 19 RUPEES ONE HUNDRED NINETY-FOUR ONLY) PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 19
नगर यूपी-201301, (रिहायशी पता) और एलजी-01 और एलजी-02, नीचला भूतल (फॉर्च्यून आवे		Mag	Cath			RUPEES ONE HUNDRED NINETY-FOR ONLY) PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 19 RUPEES ONE HUNDRED NINETY-THREE ONLY) PER EQUITY SHARE FOR AN AMOUNT UPTO ₹ 1991. ILLION# ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN T
प्लॉट नं. 87, ब्लॉक-के, सेक्टर-18, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर यूपी-201301 (संपत्ति का पता) उधारकर्ता- श्री परीक्षित महेंद्र पुत्र श्री दिलीप कुमार महेंद्र (उबारकर्ता) और गारंटर- श्री दिलीप कुमार म		iviega	aCo₹p			ATIO OF 1:10, THAT IS 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 10 (TEN) FULLY PAID- QUITY SHARES HELD BY THE ELGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT
उधारकता- जा पर्ताबत महब्रू पुत्र जा विलाप कुमार महब्रू (उधारकता) जार गारटर- जा विलाप कुमार - पुत्र औ रघुबीर सिंह महेंद्रू (गारंटर-बंधककता), दोनो निवासी: डी-70, सेक्टर-30, नोएडा, गौतमबुद्ध -			1985PLC092375			RIDAY, JANUARY 12, 2024 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO "TERMS OF THE SUE" BEGINNING ON PAGE NO. 204 OF THE LETTER OF OFFER.
यूपी-201301, (रिझयशी पता) और एलजी-01 और एलजी-02, नीचला म्रूतल (फॉर्च्यून आर्केड), प न. 87, ब्लॉक-के, सेक्टर-18, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर यूपी-201301 (संपत्ति का पता) को मांग सू	GROUP	Regd.Office: 62, Upper Groui	nd Floor, Okhla Ind		<del>)</del> ,	Assuming full subscription and receipt of all Call Monies with respect to Rights Equity Shares.
दिनांक 09.11.2023 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. 14,91,355.44 (रु. चै		Phase-III, New Delhi-110 email: info@megacorpltd.				his Corrigendum-Cum-Addendum should be read in conjunction with the earlier advertisements dated January 2024 & January 30, 2024 and Letter of Offer ("LOF") dated January 17, 2024 filed by the Company with the Securit
लाख इक्यान्चे हजार तीन सौ पच्चपन और पैसे चौवालीस) दिनांक 09.11.2023 तक और भविष्य व्याज, लागत, खर्चे एवं अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि सहित उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 f	UNAUDITED FINANCIAL RESU	LTS FOR QUARTER AND NINE	MONTHS ENDED	31 <sup>s⊤</sup> DECEMB	ER 2023	Ind Exchange Board of India ("SEBI"), the BSE and the NSE (collectively referred to as the "Stock Exchanges oplicants / Investors may note the following modifications / supplements to the disclosures in the LOF and the Abridge OF and the same may be taken as updated and included in the LOF and the Abridged LOF:
ज्याज, सागत, अब एव जन्म जाकात्मक प्रगार इत्यावि ताक्य उपरा सूचना का प्राप्त का तावि से 601 के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।				Lakhs except p	r share data)	The Note 2 titled "Details of the Object" on page no. 51 of the LOF, to be substituted as follows :
कर्जदार/गारंटर राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्रद्वारा कर्जदार/गारंटर आम जनता को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, र	SI. Particulars	Quarter Ended	STANDALONE Nine Mo	nths Ended	Year Ended	<ul> <li>"Note 2: Comprising Other Financial Liabilities, Contract Liabilities, Other Current Liabilities, Provision, Lea Liabilities and Current Tax Liabilities (Net)."</li> </ul>
अभि अभरती की खुलित किली जाती है कि अवहिस्तालर में इसमें भाव पार्थर संपर्ध के किला, प् अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तिय		(Unaudited) (Unaudited)				
and the second	No.	(enabelie of (enabelie of	Unaudited) (Unaudited	) (Unaudited)	(Audited)	The word "EBITDA" under the heading "Moderate Credit Metrics" on page no. 82 of the LOF, should read as "EBIT".
इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 30.01.2024 को लिया है।		31.12.2023 30.09.2023	31.12.2022 31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023	read as " <i>EBIT</i> ". The fifth and sixth para's under " <i>Our Business</i> " on page no. 72 of the LOF, shall be substituted as follows :
	(I) Total Revenue from operations (Including Other Income)	<b>31.12.2023 30.09.2023</b> 112.10 85.30	<b>31.12.2022 31.12.2023</b> 76.79 270.7	3 31.12.2022 3 241.69	<b>31.03.2023</b> 316.99	read as " <i>EBIT</i> ". The fifth and sixth para's under " <i>Our Business</i> " on page no. 72 of the LOF, shall be substituted as follows : " <i>Skipper has firmly established itself as one of the manufacturing Companies of Transmission Towers in Inc</i> <i>Skipper is the first choice for Tower supplies for all major EHV Transmission projects and also operates</i>
इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक <b>30.01.2024</b> को लिया है। विशेष रूप से कर्जचार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतदुद्धारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन <b>बैंक ऑफ इंडिया, घंगेल एसएस</b> शाखा, <b>नोएडा दादरी रोड सलारपुर, घंगेल, नोएडा यूपी-201008</b> के प्रभार वारते <b>रु. 14,91,355.44</b>	(I) Total Revenue from operations (Including Other Income) (II) Net Profit/(Loss) for the period before	31.12.2023 30.09.2023	31.12.2022 31.12.2023	3 31.12.2022 3 241.69	31.03.2023	read as "EBIT". The fifth and sixth para's under "Our Business" on page no. 72 of the LOF, shall be substituted as follows : "Skipper has firmly established itself as one of the manufacturing Companies of Transmission Towers in Inc Skipper is the first choice for Tower supplies for all major EHV Transmission projects and also operates all 3 verticals for Power Transmission - Angle Rolling, Tower production and EPC Line construction." "Skipper is one of the Polymer Pipes & Fittings manufacturer Companies in India and has been certified as 'Gre
इस्तेमाल के अन्तर्गत दिन्तर्भ विशेष रूप से कर्जचार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतदुद्धारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन <b>बैंक ऑफ इंडिया, घंगेल एसएस</b>	(I) Total Revenue from operations (Including Other Income) (II) Net Profit/(Loss) for the period before Tax & Exceptional Items (III) Net Profit/(Loss) for the period before Ta	31.12.2023         30.09.2023           112.10         85.30           7.30         (4.01)	<b>31.12.2022 31.12.2023</b> 76.79 270.7	3         31.12.2022           3         241.69           6         53.03	<b>31.03.2023</b> 316.99	read as "EBIT". The fifth and sixth para's under "Our Business" on page no. 72 of the LOF, shall be substituted as follows : "Skipper has firmly established itself as one of the manufacturing Companies of Transmission Towers in Inc Skipper is the first choice for Tower supplies for all major EHV Transmission projects and also operates all 3 verticals for Power Transmission - Angle Rolling, Tower production and EPC Line construction." "Skipper is one of the Polymer Pipes & Fittings manufacturer Companies in India and has been certified as 'Gr Place to Work' for two consecutive years with 2,446 Employees and 55+ Countries where we export our produ which solidifies our leadership position and leveraged our expertise and manufacturing capabilities."
इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 30.01.2024 को लिया है। विशेष रूप से कर्जवार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतवुद्धारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन <b>बैंक ऑफ इंडिया, घंगेल एसएस</b> शाखा, नोएडा दादरी रोड सलारपुर, <b>पंगेल, नोएडा यूपी-201008</b> के प्रभार वारते रु. 14,91,355.44 <b>चौरड लाख इक्यान्वे डजार तीन सौ पव्यपन और पैसे चौरालीस) दिनांक 09.11.2023 तक और र्भा का ब्याज, लागत, खर्चे एवं अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि संहित के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियं</b>	(I) Total Revenue from operations (Including Other Income) (II) Net Profit/(Loss) for the period before Tax & Exceptional Items	31.12.2023         30.09.2023           112.10         85.30           7.30         (4.01)	31.12.2022         31.12.2023           76.79         270.7           13.16         24.0	3         31.12.2022           3         241.69           6         53.03           6         53.03	31.03.2023 316.99 29.71	read as "EBIT". The fifth and sixth para's under "Our Business" on page no. 72 of the LOF, shall be substituted as follows : "Skipper has firmly established itself as one of the manufacturing Companies of Transmission Towers in Ind Skipper is the first choice for Tower supplies for all major EHV Transmission projects and also operates all 3 verticals for Power Transmission - Angle Rolling, Tower production and EPC Line construction." "Skipper is one of the Polymer Pipes & Fittings manufacturer Companies in India and has been certified as 'Grn Place to Work' for two consecutive years with 2,446 Employees and 55+ Countries where we export our produ which solidifies our leadership position and leveraged our expertise and manufacturing capabilities." The section titled "Tax Expense" on page no.186 of the LOF, shall be substituted as follows : - Our tax expenses increased by 727,65% to ₹143,68 million for Financial Year ended 31,03,2023 from ₹ 17.
इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 30.01.2024 को लिया है। विशेष रूप से कर्जचार ∕ गारंटर तथा जनसाधारण को एतदुद्धारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन <b>बैंक ऑफ इंडिया, घंगेल एसएस</b> शाखा, नोएडा वादरी रोड सलारपुर, घंगेल, नोएडा यूपी-201008 के प्रभार वास्ते रु. 14,91,355.44 <b>चौदह लाख इक्यान्दे डजार तीन सौ पच्चपन और पैसे चौवालीस) दिनांक 09.11.2023 तक और घॉ</b> का ब्याज, लागत, खर्चे एवं अन्य आक्रसिक प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियं सुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।	(I)         Total Revenue from operations (Including Other Income)           (II)         Net Profit/(Loss) for the period before Tax & Exceptional Items           (III)         Net Profit/(Loss) for the period before Ta (after Exceptional Items)           (IV)         Net Profit/(Loss) for the period after Tax and Exceptional Items	31.12.2023         30.09.2023           112.10         85.30           7.30         (4.01)           x         7.30         (4.01)           7.30         (4.01)	31.12.2022         31.12.2023           76.79         270.7           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0	3         31.12.2022           3         241.69           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03	<b>31.03.2023</b> 316.99 29.71 29.71 22.74	read as "EBIT". The fifth and sixth para's under "Our Business" on page no. 72 of the LOF, shall be substituted as follows : "Skipper has firmly established itself as one of the manufacturing Companies of Transmission Towers in Incl Skipper is the first choice for Tower supplies for all major EHV Transmission projects and also operates all 3 verticals for Power Transmission - Angle Rolling, Tower production and EPC Line construction." "Skipper is one of the Polymer Pipes & Fittings manufacturer Companies in India and has been certified as 'Gn Place to Work' for two consecutive years with 2,446 Employees and 55+ Countries where we export our produ which solidifies our leadership position and leveraged our expertise and manufacturing capabilities." The section titled "Tax Expense" on page no.186 of the LOF, shall be substituted as follows : - Our tax expenses increased by 727.65% to ₹143.68 million for Financial Year ended 31.03.2023 from ₹ 17. million for the Financial Year ended 31.03,2022. This increase was primarily due to increase in taxable income brought forward losses and unabsorbed depreciation is fully utilized and tax adjustments for earlier years.
इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 30.01.2024 को लिया है। विशेष रूप से कर्जवार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतवुद्धारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन <b>बैंक ऑफ इंडिया, घंगेल एसएस</b> शाखा, नोएडा वादरी रोड सलारपुर, घंगेल, नोएडा यूपी-201008 के प्रभार वास्ते रु. 14,91,355.44 <b>चौवड लाख इक्यान्वे डजार तीन सौ पच्चपन और पैसे चौवालीस) दिनांक 09.11.2023 तक और घॉ</b> का व्याज, लागत, खर्चे एवं अन्य आकस्मिक प्रभार इत्यादि संडित के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तिय मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। अचल संपत्ति का वह समस्त पाग एवं अंश जोकि व्यवसायिक संपत्ति एलजी-01 एवं एलजी-02, नीचला घ	(I)         Total Revenue from operations (Including Other Income)           (II)         Net Profit/(Loss) for the period before Tax & Exceptional Items           (III)         Net Profit/(Loss) for the period before Ta (after Exceptional Items)           (IV)         Net Profit/(Loss) for the period after Tax and Exceptional Items           (V)         Total comprehensive Income for the period (comprising Profit/ Loss) for the period (comprising Profit/ Loss)	31.12.2023         30.09.2023           112.10         85.30           7.30         (4.01)           x         7.30         (4.01)           7.30         (4.01)         (4.01)           od         7.30         (4.01)	31.12.2022         31.12.2023           76.79         270.7           13.16         24.0           13.16         24.0	3         31.12.2022           3         241.69           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03	31.03.2023 316.99 29.71 29.71	<ul> <li>read as "<i>EBIT</i>".</li> <li>The fifth and sixth para's under "<i>Our Business</i>" on page no. 72 of the LOF, shall be substituted as follows : "Skipper has firmly established itself as one of the manufacturing Companies of Transmission Towers in Ind Skipper is the first choice for Tower supplies for all major EHV Transmission projects and also operates all 3 verticals for Power Transmission - Angle Rolling, Tower production and EPC Line construction."</li> <li>"Skipper is one of the Polymer Pipes &amp; Fittings manufacturer Companies in India and has been certified as 'Gn Place to Work' for two consecutive years with 2,446 Employees and 55+ Countries where we export our produ which solidifies our leadership position and leveraged our expertise and manufacturing capabilities."</li> <li>The section titled "Tax Expense" on page no.186 of the LOF, shall be substituted as follows :</li> <li>Our tax expenses increased by 727.65% to \$143.68 million for Financial Year ended 31.03.2023 from ₹ 17. million for the Financial Year ended 31.03.2022. This increase was primarily due to increase in taxable income brought forward losses and unabsorbed depreciation is fully utilized and tax adjustments for earlier years. The Point No. 6 under "Section XIII - Material Developments" on page no. 195 of the LOF, to be substitut as follows:</li> </ul>
इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनाक 30.01.2024 को लिया है। विशेष रूप से कर्जवार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतदुद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, घंगेल एसएस शाखा, गोएडा वादरी रोड सलारपुर, घंगेल, नोएडा यूपी-201008 के प्रभार वास्ते रु. 14,91,355.44 चौदह लाख इक्यान्दे हजार तीन सी पच्चपन और पिसे चौवालीस) दिनांक 09.11.2023 तक और घॉ का ब्याज, लागत, खर्चे एवं अन्य आकरित्तक प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियं मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। अचल संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि व्यवसायिक संपत्ति एलजी-01 एवं एलजी-02, नीचला १ (अंतल फॉर्चयुन आर्केड), खोट नं87, ब्लॉक-के, सेक्टर-18, नोएडा, गीतमबुद्धनगर यूपी-20130	(I)         Total Revenue from operations (Including Other Income)           (II)         Net Profit/(Loss) for the period before Tax & Exceptional Items           (III)         Net Profit/(Loss) for the period before Ta (after Exceptional Items)           (IV)         Net Profit/(Loss) for the period after Tax and Exceptional Items           (V)         Total comprehensive Income for the period (comprising Profit/ Loss) for the period ( and other comprehensive Income (after I and other comprehensive Income (after I	31.12.2023         30.09.2023           112.10         85.30           7.30         (4.01)           x         7.30         (4.01)           7.30         (4.01)         (4.01)           od         7.30         (4.01)	31.12.2022         31.12.2023           76.79         270.7           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0	3         31.12.2022           3         241.69           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03	31.03.2023 316.99 29.71 29.71 22.74 25.00	read as "EBIT". The fifth and sixth para's under "Our Business" on page no. 72 of the LOF, shall be substituted as follows : "Skipper has firmly established itself as one of the manufacturing Companies of Transmission Towers in Inci Skipper is the first choice for Tower supplies for all major EHV Transmission projects and also operates all 3 verticals for Power Transmission - Angle Rolling, Tower production and EPC Line construction." "Skipper is one of the Polymer Pipes & Fittings manufacturer Companies in India and has been certified as 'Gr Place to Work' for two consecutive years with 2,446 Employees and 55+ Countries where we export our produ which solidifies our leadership position and leveraged our expertise and manufacturing capabilities." The section titled "Tax Expense" on page no.186 of the LOF, shall be substituted as follows : - Our tax expenses increased by 727.65% to ₹143.68 million for Financial Year ended 31.03.2023 from ₹ 17. million for the Financial Year ended 31.03.2022. This increase was primarily due to increase in taxable income brought forward losses and unabsorbed depreciation is fully utilized and tax adjustments for earlier years. The Point No. 6 under "Section XIII - Material Developments" on page no. 195 of the LOF, to be substituted
इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 30.01.2024 को लिया है। विशेष रूप से कर्जवार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतवुद्धारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन <b>बैंक ऑफ इंडिया, घंगेल एसएस</b> शाखा, नोएडा दादरी रोड सलारपुर, घंगेल, नोएडा यूपी-201008 के प्रभार वास्ते रु. 14,91,355.44 <b>चौरह लाख इक्यान्दे डगार तीन सौ एच्चपन और पिसे चौवालीस) दिनांक 09.11.2023 तक और घॉ</b> का ब्याज, लागत, खर्चे एवं अन्य आक्टिंसक प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान एकट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियं मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। अद्यल संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि व्यवसायिक संपत्ति एलजी-01 एवं एलजी-02, नीचला प् (अंसल फॉर्चयून आऊंड), प्लॉट नं87, व्लॉक-के, सेक्टर-18, नोएडा, गौतमसुखनगर यूपी-20130 स्थित, (लीज डोड सं. 559 दिनांक-02-2007 और सं. 70 दिनांक 04-01-2007 क्रमज़ा) बेत्र 09.53 वर्ग. मी. एवं 12.40 वर्ग मीटर-क्रमज़ा, यह सम्पत्ति त्री दिलीप कुमार महिन्द्र पुत्र त्री खुबार	(I)         Total Revenue from operations (Including Other Income)           (II)         Net Profit/(Loss) for the period before Tax & Exceptional Items           (III)         Net Profit/(Loss) for the period before Ta (after Exceptional Items)           (IV)         Net Profit/(Loss) for the period after Tax and Exceptional Items           (V)         Total comprehensive Income for the period (comprising Profit/ Loss) for the period (comprising Profit/ Loss)	31.12.2023         30.09.2023           112.10         85.30           7.30         (4.01)           x         7.30         (4.01)           7.30         (4.01)         (4.01)           odd         7.30         (4.01)           ix         7.30         (4.01)           0         7.30         (4.01)           ix         7.30         (4.01)	31.12.2022         31.12.2023           76.79         270.7           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0	31.12.2022           3         241.69           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03	<b>31.03.2023</b> 316.99 29.71 29.71 22.74	<ul> <li>read as "<i>EBIT</i>".</li> <li>The fifth and sixth para's under "<i>Our Business</i>" on page no. 72 of the LOF, shall be substituted as follows : "<i>Skipper has firmly established itself as one of the manufacturing Companies of Transmission Towers in Inc Skipper is the first choice for Tower supplies for all major EHV Transmission projects and also operates all 3 verticals for Power Transmission - Angle Rolling, Tower production and EPC Line construction."</i></li> <li><i>"Skipper is one of the Polymer Pipes &amp; Fittings manufacturer Companies in India and has been certified as 'Gre Place to Work' for two consecutive years with 2,446 Employees and 55+ Countries where we export our produ which solidifies our leadership position and leveraged our expertise and manufacturing capabilities.</i></li> <li>The section titled "Tax Expense" on page no.186 of the LOF, shall be substituted as follows :         <ul> <li>Our tax expenses increased by 727.65% to ₹143.68 million for Financial Year ended 31.03.2023 from ₹ 17.</li> <li>million for the Financial Year ended 31.03.2022. This increase was primarily due to increase in taxable income brought forward losses and unabsorbed depreciation is fully utilized and tax adjustments for earlier years.</li> <li>The Point No. 6 under "Section XIII - Material Developments" on page no. 195 of the LOF, to be substitut as follows:         <ul> <li>Consistent performance of Engineering Business, Engineering Segment operating EBITDA margin for 6 (start)</li> </ul> </li> </ul></li></ul>
इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 30.01.2024 को लिया है। विशेष रूप से कर्जवार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतवुद्धारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन <b>बैंक ऑफ इंडिया, घंगेल एसएस</b> शाखा, नोएडा वादरी रोड सलारपुर, घंगेल, नोएडा यूपी-201008 के प्रभार वारते रु. 14,91,355.44 <b>पौदह लाख इक्यान्वे हजार तीन सौ पच्चपन और पिसे चौवालीस) दिनांक 09.11.2023 तक और घॉ</b> का व्याज, लागत, खर्चे एवं अन्य आकस्मिक प्रमार इत्यादि सहित के अर्थान होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान एकट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तिये मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। अद्यल तरंपत्ति का वह समस्त माग एवं अंश जोकि व्यवसायिक संपत्ति प्रलजी-01 एवं एलजी-02, नीचला ध् (अंसल फॉर्च्यून आकेंड), 'सॉट नं87, खॉक-के, सेक्टर-18, नोएडा, गौतमबुखनगर यूपी-20130 स्थित, (लीज डीड सं. 559 दिनांक-02-02-2007 और सं. 70 दिनांक 04-01-2007 क्रमअ:) क्षेत्र 99.53 वर्ग. मी. एवं 12.40 वर्ग मीटर-क्रमश:, यह सम्पत्ति श्री दिलीप कुमार महिन्द्र पुत्र श्री रघुबीर महिन्दू (पारंटर-बंधकक्रती) के नाम पर है। चौहही:	(I)         Total Revenue from operations (Including Other Income)           (II)         Net Profit/(Loss) for the period before Tax & Exceptional Items           (III)         Net Profit/(Loss) for the period before Ta (after Exceptional Items)           (IV)         Net Profit/(Loss) for the period after Tax and Exceptional Items           (V)         Total comprehensive Income for the period after Tax and Exceptional Items           (V)         Total comprehensive Income for the period ( and other comprehensive Income (after I (VI)           (VI)         Other Equity           (VIII)         Paid up Equity Capital (FV of Rs. 1/- eac (VIII)           (VIII)         Earning per Equity Share	31.12.2023         30.09.2023           112.10         85.30           7.30         (4.01)           x         7.30         (4.01)           7.30         (4.01)         (4.01)           odd         7.30         (4.01)           ix         7.30         (4.01)           0         7.30         (4.01)           ix         7.30         (4.01)	31.12.2022         31.12.2023           76.79         270.7           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0	i         31.12.2022           3         241.69           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           0         1,000.00	31.03.2023 316.99 29.71 29.71 22.74 25.00 1,400.70	<ul> <li>read as "<i>EBIT</i>".</li> <li>The fifth and sixth para's under "<i>Our Business</i>" on page no. 72 of the LOF, shall be substituted as follows :</li> <li>"<i>Skipper has firmly established itself as one of the manufacturing Companies of Transmission Towers in Inc Skipper is the first choice for Tower supplies for all major EHV Transmission projects and also operates all 3 verticals for Power Transmission - Angle Rolling, Tower production and EPC Line construction.</i>"</li> <li>"<i>Skipper is one of the Polymer Pipes &amp; Fittings manufacturer Companies in India and has been certified as 'Gn Place to Work' for two consecutive years with 2,446 Employees and 55+ Countries where we export our product which solidifies our leadership position and leveraged our expertise and manufacturing capabilities.</i>"</li> <li>The section titled "Tax Expense" on page no.186 of the LOF, shall be substituted as follows :</li> <li>Our tax expenses increased by 727.65% to ₹143.68 million for Financial Year ended 31.03.2023 from ₹ 17. million for the Financial Year ended 31.03.2022. This increase was primarily due to increase in taxable income brought forward losses and unabsorbed depreciation is fully utilized and tax adjustments for earlier years.</li> <li>The Point No. 6 under "Section XIII - Material Developments" on page no. 195 of the LOF, to be substitut as follows:</li> <li>Consistent performance of Engineering Business, Engineering Segment operating EBITDA margin for 6 (smonths period ended September 30, 2023 stands at 10.85%.</li> <li>The date under the head "<i>Disclaimer Clause of SEBI</i>" on page no. 197 of the LOF, should be read "September 29, 2023" instead of "January 17, 2024".</li> <li>the information in this Corrigendum-Cum-Addendum supplements the LOF and the ALOF and accordingly th</li> </ul>
इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 30.01.2024 को लिया है। विशेष रूप से कर्जवार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतवुद्धारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन <b>बैंक ऑफ इंडिया, घंगेल एसएस</b> शाखा, नोएडा वावरी रोड सलारपुर, घंगेल, नोएडा यूपी-201008 के प्रभार वारते रु. 14,91,355.44 <b>चौदह लाख इक्यान्वे हजार तीन सौ एच्चपन और पैसे चौवालीस) दिनांक 09.11.2023 तक और घॉ</b> का व्याज, लागत, खर्चे एवं अन्य आकस्मिक प्रमार इत्यादि सडित के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तिय मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। <u>अधल संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश</u> जोकि व्यवसायिक संपत्ति एलजी-01 एवं एलजी-02, नीचला प्र (अंसल फॉर्ड्यून आकेंड), प्लीट नं87, ब्लॉक-के, सेक्टर-18, नोएडा, गौतमबुखनगर यूपी-20130 स्वित, (लीज डीह सं. 559 दिनांक-02-02-2007 और सं. 70 दिनांक 04-01-2007 क्रमक्षा) के 9.9-53 वर्ग. मी. एवं 12.40 वर्ग मीटर-क्रमक्ष:, यह सम्पत्ति श्री दिलीप कुमार महिन्द्र पुत्र श्री रखुवीर महिन्द्र (गांटर-बंधकक्रती) के नाम पर है। चौहदी: संपत्ति एलजी-01: उत्तर में - अन्य की शूमि, दक्षिण में - व्यवासयिक स्पेस नं. एलजी-02, पूरब	(I)         Total Revenue from operations (Including Other Income)           (II)         Net Profit/(Loss) for the period before Tax & Exceptional Items           (III)         Net Profit/(Loss) for the period before Ta (after Exceptional Items)           (IV)         Net Profit/(Loss) for the period after Tax and Exceptional Items           (V)         Total comprehensive Income for the period and other comprehensive Income (after I (VI)           (VI)         Total comprehensive Income (after I (VII)           (VI)         Other Equity (VII)           (VII)         Paid up Equity Capital (FV of Rs. 1/- eac (Face value of Rs. 1 each) Basic (Rs.)           (IX)         Earning per Equity Share	31.12.2023         30.09.2023           31.12.2023         30.09.2023           112.10         85.30           7.30         (4.01)           x         7.30         (4.01)           7.30         (4.01)           od (after tax)         7.30         (4.01)           xx)         1.000.00         1.000.00	31.12.2022         31.12.2022           76.79         270.7           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.00         1,000.00	i         31.12.2022           3         241.69           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           7         0           0         1,000.00           2         0.05	31.03.2023 316.99 29.71 29.71 22.74 25.00 1,400.70 1,000.00	<ul> <li>read as "<i>EBIT</i>".</li> <li>The fifth and sixth para's under "<i>Our Business</i>" on page no. 72 of the LOF, shall be substituted as follows :</li> <li>"Skipper has firmly established itself as one of the manufacturing Companies of Transmission Towers in Inc. Skipper is the first choice for Tower supplies for all major EHV Transmission projects and also operates all 3 verticals for Power Transmission - Angle Rolling, Tower production and EPC Line construction."</li> <li>"Skipper is one of the Polymer Pipes &amp; Fittings manufacturer Companies in India and has been certified as 'Gm Place to Work' for two consecutive years with 2,446 Employees and 55+ Countries where we export our produ which solidifies our leadership position and leveraged our expertise and manufacturing capabilities."</li> <li>The section titled "Tax Expense" on page no.186 of the LOF, shall be substituted as follows :</li> <li>- Our tax expenses increased by 727.65% to ₹143.68 million for Financial Year ended 31.03.2023 from ₹ 17. million for the Financial Year ended 31.03.2022. This increase was primarily due to increase in taxable income brought forward losses and unabsorbed depreciation is fully utilized and tax adjustments for earlier years. The Point No. 6 under "Section XIII - Material Developments" on page no. 195 of the LOF, to be substitut as follows:</li> <li>Consistent performance of Engineering Business, Engineering Segment operating EBITDA margin for 6 (s months period ended September 30, 2023 stands at 10.85%.</li> <li>The date under the head "Disclaimer Clause of SEBI" on page no. 197 of the LOF, should be read "September 29, 2023" instead of "January 17, 2024".</li> </ul>
इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनके 30.01.2024 को लिया है। विशेष रूप से कर्जवार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतदुद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करं लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन <b>बैंक ऑफ इंडिया, घंगेल एसएस</b> शाखा, गोएडा वादरी रोड सलारपुर, घंगेल, नोएडा यूपी-201008 के प्रभार वारते रु. 14,91,355.44 चौरह लाख इक्यान्ये कणार तीन सौ पच्चपन और पिसे चौवालीस) दिनांक 09.11.2023 तक और घॉ का ब्याज, लागत, खर्चे एवं अन्य आकर्सिक प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा। उचारकर्ताओं का व्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियं मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। <u>अचल संपत्ति का विवरण</u> सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि व्यवसायिक संपत्ति एलजी-01 एवं एलजी-02, नीचला १ (अंसल एकंच्चून आकंड), प्लॉट नं87, लॉक-के, सेक्टर-18, नोएडा, गौतमबुडवगर यूपी-20130 स्विर, (लीज डींड सं. 559 दिनांक-02-02-2000 और सं. 70 दिनांक 04-01-2007 क्रमका) बेत्र 09.53 दर्ग. भी. एवं 12.40 वर्ग मीटर-क्रमक्ष:, यह सम्पत्ति श्री दिलीप कुमार महिन्दू पुत्र श्री खुवीर महिन्दू (गारंटर-बंधककती) के नाम पर है। चौहदी: संपत्ति एलजी-01: उत्तर में – अन्य की भूमि, दक्षिण में – व्यवासयिक स्पेस नं. एलजी-02, पूरव न गलियार, पश्चिम में – अन्य की भूमि संपत्ति एलजी-02: उत्तर में – व्यवसायिक स्पेस नं. एलजी-01, दक्षिण में – व्यवसायिक स्पेस	(I)         Total Revenue from operations (Including Other Income)           (II)         Net Profit/(Loss) for the period before Tax & Exceptional Items           (III)         Net Profit/(Loss) for the period before Ta (after Exceptional Items)           (IV)         Net Profit/(Loss) for the period after Tax and Exceptional Items           (V)         Total comprehensive Income for the period (comprising Profit/ (Loss) for the period ( and other comprehensive Income (after I (VI)           (VI)         Other Equity Paid up Equity Capital (FV of Rs. 1/- eac (VIII)           (VIII)         Paid up Equity Capital (FV of Rs. 1/- eac (Face value of Rs. 1 each) Basic (Rs.)           (IX)         Earning per Equity Share (Face value of Rs. 1 each) Diluted (Rs.)	31.12.2023         30.09.2023           31.12.2023         30.09.2023           112.10         85.30           7.30         (4.01)           xx         7.30         (4.01)           0d (after tax) (after tax)         7.30         (4.01)           xx)         1,000.00         1,000.00           0.01         (0.00)         10.000	31.12.2022         31.12.2022           76.79         270.7           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         0.0	i         31.12.2022           3         241.69           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           7         0           0         1,000.00           2         0.05	31.03.2023 316.99 29.71 29.71 22.74 25.00 1,400.70 1,000.00 0.03	<ul> <li>read as "<i>EBIT</i>".</li> <li>The fifth and sixth para's under "<i>Our Business</i>" on page no. 72 of the LOF, shall be substituted as follows : "<i>Skipper has firmly established itself as one of the manufacturing Companies of Transmission Towers in Ind Skipper is the first choice for Tower supplies for all major EHV Transmission projects and also operates all 3 verticals for Power Transmission - Angle Rolling, Tower production and EPC Line construction.</i>" <i>"Skipper is one of the Polymer Pipes &amp; Fittings manufacturer Companies in India and has been certified as 'Grn Place to Work' for two consecutive years with 2,446 Employees and 55+ Countries where we export our produ which solidifies our leadership position and leveraged our expertise and manufacturing capabilities.</i>" The section titled "Tax Expense" on page no. 186 of the LOF, shall be substituted as follows : <i>Our tax expenses increased by 727.65% to \$143.68 million for Financial Year ended 31.03.2023 from ₹ 17. million for the Financial Year ended 31.03.2022. This increase was primarily due to increase in taxable income brought forward losses and unabsorbed depreciation is fully utilized and tax adjustments for earlier years.</i> The Point No. 6 under "Section XIII - Material Developments" on page no. 195 of the LOF, to be substitut as follows: <i>Consistent performance of Engineering Business, Engineering Segment operating EBITDA margin for 6 (steppender 29, 2023</i>" instead of "<i>January 17, 2024</i>".</li> <li>The date under the head "<i>Disclaimer Clause of SEBI</i>" on page no. 197 of the LOF and accordingly th ferences in the LOF and the ALOF stand updated pursuant to this Corrigendum-Cum-Addendum supplements the LOF and the ALOF and accordingly th ferences in the LOF and the ALOF stand updated pursuant to this Corrigendum-Cum-Addendum to the LOF at e ALOF. his Corrigendum-Cum-Addendum will be filed with SEBI and shall be made available on the website of SEBI</li> </ul>
इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनंक 30.01.2024 को लिया है। विशेष रूप से कर्जवार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतवूद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करं लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन <b>बैंक ऑफ इंडिया, पंगेल एसएस</b> शाखा, गोएडा वादरी रोड सलारपुर, पंगेल, नोएडा यूपी-201008 के प्रभार वास्ते रु. 14,91,355.44 <b>धौषड लाख इक्यान्वे डणार तीन सौ एव्यपन और पैसे चौवालीस) दिनांक 09.11.2023 तक और पॉ</b> का व्याज, लागत, खर्बे एवं अन्य आकरिंसक प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा। उघारकर्ताओं का व्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियं मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षिय किया जाता है। अध्यल संपत्ति का विवरण सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि व्यवसायिक संपत्ति एलजी-01 एवं एलजी-02, नीचला १ (अंसल फॉर्म्यून आकॅड), प्लॉट नं87, लॉक-के, सेस्टर-18, नोएडा, गौतमबुडनपर यूपी-20130 स्विर, (लीज डीड सं. 559 दिनॉक-02-02-2007 और सं. 70 दिनांक 04-01-2007 क्रमक्ष:) क्षेत्र 09.53 दर्ग. भी. एवं 12.40 वर्ग मीटर-क्रमक्ष:, यह सम्पत्ति श्री दिलीप कुमार महिन्दू पुत्र श्री रपुषीर महिन्दू (गारंटर-बंधकक्ती) के नाम पर है। चेहिद्धेः संपत्ति एलजी-01: उत्तर में – अन्य की भूमि, दक्षिण में – व्यवासयिक स्पेस नं. एलजी-02, पूरब गतियारा, पश्चिम में – अन्य की भूमि संपत्ति एलजी-02: उत्तर में – व्यवसायिक स्पेस नं. एलजी-01, दक्षिण में – व्यवसायिक स्पेस एलजी-03, पूरब में – गलियारा, पश्चिम में – अन्य की भूमि	(I)         Total Revenue from operations (Including Other Income)           (II)         Net Profit/(Loss) for the period before Tax & Exceptional Items           (III)         Net Profit/(Loss) for the period before Ta (after Exceptional Items)           (IV)         Net Profit/(Loss) for the period after Tax and Exceptional Items)           (V)         Total comprehensive Income for the period and other comprehensive Income (after I (VI)           (VII)         Paid up Equity Capital (FV of Rs. 1/- eac (VIII)           (VIII)         Paid up Equity Capital (FV of Rs. 1/- eac (VIII)           (IX)         Earning per Equity Share (Face value of Rs. 1 each) Basic (Rs.)           (IX)         Earning per Equity Share (Face value of Rs. 1 each) Diluted (Rs.)           Notes:-         1. The above unaudited results, reviewed	31.12.2023         30.09.2023           31.12.2023         30.09.2023           112.10         85.30           7.30         (4.01)           x         7.30         (4.01)           7.30         (4.01)           x         7.30         (4.01)           after tax)         7.30         (4.01)           x         1,000.00         1,000.00           0.01         (0.00)         0.01	31.12.2022         31.12.2022           76.79         270.7           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           0.1         0.0           0.01         0.0           0.01         0.0	i         31.12.2022           3         241.69           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           7         0.000.00           2         0.05	31.03.2023           316.99           29.71           29.71           22.74           25.00           1,400.70           1,000.00           0.03	<ul> <li>read as "<i>EBIT</i>".</li> <li>The fifth and sixth para's under "<i>Our Business</i>" on page no. 72 of the LOF, shall be substituted as follows :</li> <li>"Skipper has firmly established itself as one of the manufacturing Companies of Transmission Towers in Inc. Skipper is the first choice for Tower supplies for all major EHV Transmission projects and also operates all 3 verticals for Power Transmission - Angle Rolling, Tower production and EPC Line construction."</li> <li>"Skipper is one of the Polymer Pipes &amp; Fittings manufacturer Companies in India and has been certified as 'Gn Place to Work' for two consecutive years with 2,446 Employees and 55+ Countries where we export our produ which solidifies our leadership position and leveraged our expertise and manufacturing capabilities."</li> <li>The section titled "Tax Expense" on page no.186 of the LOF, shall be substituted as follows :</li> <li>Our tax expenses increased by 727.65% to ₹143.68 million for Financial Year ended 31.03.2023 from ₹ 17. million for the Financial Year ended 31.03.2022. This increase was primarily due to increase in taxable income brought forward losses and unabsorbed depreciation is fully utilized and tax adjustments for earlier years.</li> <li>The Point No. 6 under "Section XIII - Material Developments" on page no. 195 of the LOF, should be read "Bollows:</li> <li>Consistent performance of Engineering Business, Engineering Segment operating EBITDA margin for 6 (s months period ended September 30, 2023 stands at 10.85%.</li> <li>The date under the head "Disclaimer Clause of SEBI" on page no. 197 of the LOF, should be read "September 2, 2023" instead of "January 17, 2024".</li> <li>he information in this Corrigendum-Cum-Addendum supplements the LOF and the ALOF and accordingly th ferences in the LOF and the ALOF stand updated pursuant to this Corrigendum-Cum-Addendum to the LOF at eALOF. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the LOF at eALOF.</li> </ul>
इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनंक 30.01.2024 को लिया है। विशेष रूप से कर्जवार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतदुद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करं लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन <b>बैंक ऑफ इंडिया, घंगेल एसएस</b> शाखा, गोएडा वादरी रोड सलारपुर, घंगेल, नोएडा यूपी-201008 के प्रभार वारते रु. 14,91,355.44 चौरह लाख इक्यान्ये डणार तीन सौ पच्चपन और पिसे चौवालीस) दिनांक 09.11.2023 तक और घॉ का व्याज, लागत, खर्चे एवं अन्य आकरिमक प्रमार इत्यादि सहित के अधीन होगा। उचारकर्ताओं का व्यान एकट की धारा 13 की उप चारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियं मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। <u>अचल संपत्ति का विवरण</u> सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि व्यवसायिक संपत्ति एलजी-01 एवं एलजी-02, नीचला १ (अंसल एकंचुंयून आकेंड), लॉट नं87, बॉक-के, सेक्टर-18, नोएडा, गौतमबुडसनपर यूपी-20130 हियत, (लॉच डॉड सं. 559 दिनांक-02-2000 और सं. 70 दिनांक 04-01-2007 क्रमडा.) बेत्र 09.53 वर्ग. मी. एवं 12.40 वर्ग मीटर-क्रमक्ष:, यह सम्पत्ति श्री दिलीप कुमार महिन्द्र पुत्र श्री पुखीर महिन्दू (गारंटर-बंधककती) के नाम पर है। चौहदी: संपत्ति एलजी-01: उत्तर में – अन्य की भूमि, दक्षिण में – व्यवासयिक स्पेस नं. एलजी-02, पूरव न गलियारा, पश्चिम में – अन्य की भूमि संपत्ति एलजी-02: उत्तर में – व्यवसायिक स्पेस नं. एलजी-01, दक्षिण में – व्यवसायिक स्पेस	(I)         Total Revenue from operations (Including Other Income)           (II)         Net Profit/(Loss) for the period before Tax & Exceptional Items           (III)         Net Profit/(Loss) for the period before Ta (after Exceptional Items)           (IV)         Net Profit/(Loss) for the period after Tax and Exceptional Items           (V)         Total comprehensive Income for the period (comprising Profit/ Loss) for the period ( and other comprehensive Income (after I (VI)           (VII)         Paid up Equity Capital (FV of Rs. 1/- eac (VIII)           (VIII)         Paiming per Equity Share (Face value of Rs. 1 each) Basic (Rs.)           (IX)         Earning per Equity Share (Face value of Rs. 1 each) Diluted (Rs.)           Notes:-         Notes:-	31.12.2023         30.09.2023           31.12.2023         30.09.2023           112.10         85.30           7.30         (4.01)           x         7.30         (4.01)           od (after tax)         7.30         (4.01)           sh)         1,000.00         1,000.00           0.01         (0.00)         0.01           0.01         (0.00)         0.01	31.12.2022         31.12.2022           76.79         270.7           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           0.13.16         24.0           0.01         0.00           0.01         0.00           0.01         0.0           0.01         0.0           0.01         0.0	i         31.12.2022           3         241.69           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           7         0.000.00           2         0.05	31.03.2023           316.99           29.71           29.71           22.74           25.00           1,400.70           1,000.00           0.03	<ul> <li>read as "<i>EBIT</i>".</li> <li>The fifth and sixth para's under "<i>Our Business</i>" on page no. 72 of the LOF, shall be substituted as follows :</li> <li>"Skipper has firmly established itself as one of the manufacturing Companies of Transmission Towers in Inc. Skipper is the first choice for Tower supplies for all major EHV Transmission projects and also operates all 3 verticals for Power Transmission - Angle Rolling, Tower production and EPC Line construction."</li> <li>"Skipper is one of the Polymer Pipes &amp; Fittings manufacturer Companies in India and has been certified as 'Gn Place to Work' for two consecutive years with 2,446 Employees and 55+ Countries where we export our produ which solidifies our leadership position and leveraged our expertise and manufacturing capabilities."</li> <li>The section titled "Tax Expense" on page no.186 of the LOF, shall be substituted as follows :</li> <li>Our tax expenses increased by 727.65% to ₹143.68 million for Financial Year ended 31.03.2023 from ₹ 17. million for the Financial Year ended 31.03.2022. This increase was primarily due to increase in taxable income brought forward losses and unabsorbed depreciation is fully utilized and tax adjustments for earlier years.</li> <li>The Point No. 6 under "Section XIII - Material Developments" on page no. 195 of the LOF, should be read "september 29, 2023" instead of "January 17, 2024".</li> <li>The date under the head "<i>Disclaimer Clause of SEBI</i>" on page no. 197 of the LOF, should be read "September 29, 2023" instead of "January 17, 2024".</li> <li>the information in this Corrigendum-Cum-Addendum supplements the LOF and the ALOF and accordingly th ferences in the LOF and the ALOF stand updated pursuant to this Corrigendum-Cum-Addendum to the LOF at eALOF.</li> <li>his Corrigendum-Cum-Addendum will be filed with SEBI and shall be made available on the website of SEBI www.sebif.gov.in, on the websites of the Stock Exchanges i.e. NSE and BSE at www.nseindia.com a www.seite of the COF)</li> </ul>
इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनंक 30.01.2024 को लिया है। विशेष रूप से कर्जवार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतवूद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करं लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन <b>बैंक ऑफ इंडिया, घंगेल एसएस</b> शाखा, नोएडा वादरी रोड सलारपुर, घंगेल, नोएडा यूपी-201008 के प्रभार वास्ते रु. 14,91,355.44 चौरह लाख इक्यान्से डणार तीन सौ पच्चपन और पैसे चौवालीस) दिनांक 09.11.2023 तक और घॉ क व्याज, लागत, खर्वे एवं अन्य आकरिसक प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा। उचारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियं मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षिय किया जाता है। अध्यल संपत्ति का विवरण सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि व्यवसायिक संपत्ति एलजी-01 एवं एलजी-02, नीचला १ (अंसल फॉर्म्यूयून आकेंड), प्लॉट ने87, लॉक-के, सेस्टर-18, नोएडा, गौतमबुडलरार यूपी-20130 स्थित, (लीज डीह सं. 559 दिनांक-02-02-2007 और सं. 70 दिनांक 04-01-2007 क्रमक्ष:) बेत्र 09.53 दर्ग. मी. एवं 12.40 वर्ग मीटर-क्रमक्ष:, यह सम्पत्ति श्री दिलीप कुमार महिन्दू पुत्र श्री रघुवीर महिन्दू (पारंटर-बंधककर्ता) के नाम पर है। चौहिन्ने: संपत्ति एलजी-01: उत्तर में – आन्य की भूमि, दक्षिण में – व्यवासयिक स्पेस नं. एलजी-02, पूरब गतियारा, परिवम में – अन्य की भूमि संपत्ति एलजी-02: उत्तर में – व्यवसायिक स्पेस नं. एलजी-01, दक्षिण में – व्यवसायिक स्पेस एलजी-03, पूरब में – गलियारा, पश्चिम में – अन्य की भूमि	<ul> <li>(I) Total Revenue from operations (Including Other Income)</li> <li>(II) Net Profit/(Loss) for the period before Tax &amp; Exceptional Items</li> <li>(III) Net Profit/(Loss) for the period before Ta (after Exceptional Items)</li> <li>(IV) Net Profit/(Loss) for the period after Tax and Exceptional Items</li> <li>(V) Not Profit/(Loss) for the period after Tax and Exceptional Items</li> <li>(V) Total comprehensive Income for the period (and other comprehensive Income (after I (VI) Other Equity</li> <li>(VII) Paid up Equity Capital (FV of Rs. 1/- eac (VIII) Earning per Equity Share (Face value of Rs. 1 each) Basic (Rs.)</li> <li>(IX) Earning per Equity Share (Face value of Rs. 1 each) Diluted (Rs.)</li> <li>Notes:-</li> <li>The above unaudited results, reviewed held on 01<sup>st</sup> February, 2024.</li> </ul>	31.12.2023         30.09.2023           112.10         85.30           7.30         (4.01)           x         7.30         (4.01)           od (after tax)         7.30         (4.01)           stax)         1,000.00         1,000.00           0.01         (0.00)         0.01           0.01         (0.00)         0.01           0.01         by the Audit Committee were taker           adjustment will be considered at the         1.000.00	31.12.2022         31.12.2022           76.79         270.7           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           13.16         24.0           10.00         1,000.0           0.01         0.0           0.01         0.0           0.01         0.0           0.01         0.0           0.01         0.0	i         31.12.2022           3         241.69           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           6         53.03           7         0.000.00           2         0.05	31.03.2023           316.99           29.71           29.71           22.74           25.00           1,400.70           1,000.00           0.03           0.03	<ul> <li>read as "<i>EBIT</i>".</li> <li>The fifth and sixth para's under "<i>Our Business</i>" on page no. 72 of the LOF, shall be substituted as follows :</li> <li>"Skipper has firmly established itself as one of the manufacturing Companies of Transmission Towers in Inc. Skipper is the first choice for Tower supplies for all major EHV Transmission projects and also operates all 3 verticals for Power Transmission - Angle Rolling, Tower production and EPC Line construction."</li> <li>"Skipper is one of the Polymer Pipes &amp; Fittings manufacturer Companies in India and has been certified as 'Gm Place to Work' for two consecutive years with 2.446 Employees and 55+ Countries where we export our produ which solidifies our leadership position and leveraged our expertise and manufacturing capabilities."</li> <li>The section titled "Tax Expense" on page no.186 of the LOF, shall be substituted as follows : <ul> <li>Our tax expenses increased by 727.65% to ₹143.68 million for Financial Year ended 31.03.2023 from ₹ 17. million for the Financial Year ended 31.03.2022. This increase was primarily due to increase in taxable income brought forward losses and unabsorbed depreciation is fully utilized and tax adjustments for earlier years.</li> <li>The Point No. 6 under "Section XIII - Material Developments" on page no. 195 of the LOF, should be read</li> <li>"September 29, 2023" instead of "January 17, 2024".</li> </ul> </li> <li>the date under the head "<i>Disclaimer Clause of SEBI</i>" on page no. 197 of the LOF and accordingly th ferences in the LOF and the ALOF stand updated pursuant to this Corrigendum-Cum-Addendum upplements the LOF and the ALOF and accordingly the ferences in the LOF and the ALOF stand updated pursuant to this Corrigendum-Cum-Addendum to the LOF a e ALOF. All capitalized terms used and not defined herein shall be made available on the website of SEBI www.sebi.gov.in, on the website of the Stock Exchanges i.e. NSE and BSE at www.nseindia.com as www.seeindia.com respectively, on the website of the Company at www.skipper</li></ul>

For Mega Corporation Limited Sd./-Surendra Chhalani

(Director & CFO)

For Skipper Limited On behalf of the Board of Directors Sd/

lace : Kolkata

Date: 01.02.2024 Place: New Delhi

DIN:00002747

ate : February 01, 2024

Anu Singh Company Secretary

	मिक्यरिटाइजे	शन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एं	ड एन्फोर्समेंट ऑप	5			
		इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2)					
	कर्जदाता (ओं) का नाम	गरवी संपत्ति (यों) का विवरण	एन.पी.ए.की				
अनु. —			एन.पा.ए.का तारीख (सी)	बकाया राशि			
क्र. 1	(y)	(ৰী)	ताराख (सा) 10.10.2022	(रू.) (डी)			
1	कर्ज खाता क्र.HHLNOD00221727	फ्लैट नं. बी-505, पाँचवीं मंजिल, टॉवर -बी,	10.10.2022	रू.18,37,838.73 (रूपये			
	1. चुन्नू लाल यादव	रोयल कोर्ट, प्लॉट जीएच 4सी, सेक्टर-16,		अठारह लाख सैंतीस हजार आठ			
	2. मुनिता यादव	ग्रेटर नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश		सौ अडतीस और तिहत्तर पैसे			
-				मात्र) 17.01.2024 के अनुसार			
2	कर्ज खाता क्र.HHLNO100243286	युनिट ए -2-1301, तेरहवीं मंजिल,	06.04.2022	रू.6,61,377.59 (रूपये छ			
	1. लीना प्रीति सेन	ब्लॉक/टॉवर-ए2, स्पोर्टस विलेज, स्पोर्टस		लाख इकसठ हजार तीन सौ			
	2. शुनिला सेन	सिटी, प्लॉट नं.एससी-02, सेक्टर-27, ग्रेटर		सतहत्तर और उनसठ पैसे मात्र)			
		नोएडा, नोएडा-201001, उत्तर प्रदेश		12.01.2024 के अनुसार			
3	कर्ज खाता क्र.HHLDCP00211196	युनिट नं.2123, इक्की सवीं मंजिल,	11.04.2022	रू.23,42,684.86 (रूपये तेईस			
	1. निशू गांधी	टॉवर-एच, सुपरटेक अपकंट्री, प्लॉट नं.		लाख बयालीस हजार छ सौ			
	2. रंजीत कौर	टीएस-1, सेक्टर-17ए, यमुना एक्सप्रेसवे, गौतम		चौरासी और छियासी पैसे मात्र)			
		बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा -201303, उत्तर प्रदेश		08.01.2024 के अनुसार			
4	कर्ज खाता क्र.HHLNO100111453	प्लॉट नं. 134, सुपरटेक गोल्फ कंट्री, टीएस-5,	07.05.2022	रू.12,26,115.31 (रूपये			
	1. मंजू गौड़	सेक्टर-22डी, बेईडा, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर		बारह लाख छब्बीस हजार एक			
	2. सुरेंश गौड़	नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश		सौ पंद्रह और डकतीस पैसे मात्र			
				12.01.2024 के अनसार			
5	कर्ज खाता क्र.HHLDCP00205704	फ्लैट नं.107, तल मंजिल,सीढी के साथ	09.01.2024	रू.10,07,130.73 (रूपये			
	1. नीरज कुमार झा	एलएचएस फ्लैट के साथ संलग्न, प्लॉट नं.		दस लाख सात हजार एक सौ			
	2. प्रीति कुमारी उर्फ प्रीति झा	बी-74/11, डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी,		तीस और तिहत्तर पैसे मात्र)			
		गाज़ियाबाद-201001, उत्तर प्रदेश		18.01.2024 के अनुसार			
6	कर्ज खाता क्र.HHLDCP00210293	युनिट नं. 310, तीसरी मंजिल, टॉवर-डबल्यु1,	12.05.2022	रू.15.45.178.77 (रूपये			
	1. प्रीति द्विवेदी	सुपरटेक गोल्फ विलेज, गोल्फ कंटी, टीएस-		पंद्रह लाख पैंतालीस हजार एक			
	2. विश्वामित्र द्विवेदी	05. सेक्टर 22डी, येईडा, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर		सौ अठहत्तर और सतहत्तर पैसे			
		नोएडा-201303, उत्तर प्रदेश		मात्र) 11.01.2024 के अनुसार			
7	कर्ज खाता क्र.HHLNOD00494455	प्लैट नं.एफएफ-3, पहली मंजिल, पीछे	09.10.2023	रू.9,79,729.23 (रूपये नौ			
	वज खाता क्र.ममटार्फ्ट्राट्य्यम्बउउ 1. रत्नेश कुमार पांडे	एलएचएस, रूफ राइट्स के बिना, प्लॉट नं.		लाख उनासी हजार सात सौ			
	2. खुश्ब पांडे	बी-45, खसरा नं.227, रेल विहार, सद्दलाबाद,		अन्तीस और तेईस पैसे मात्र)			
	2. खुरखु पाठ	गाजियाबाद -201102.उत्तर प्रदेश		3नता स आर तइस पंस मात्र) 23.01.2024 के अनुसार			
8	कर्ज खाता क्र.HHLDCP00351157	पिलियाबाद -201102,31र प्रदेश फलैट नं. 0506, पाँचवीं मंजिल, टॉवर यु1,	09.06.2022	<u>23.01.2024 क अनुसार</u> रू.5.69,982.16 (रूपये			
•	केज खाता क्र.HHLDCP00351157 1. संजय कुमार राय	पलट न. 0506, पांचवा माजल, टावर थु1, सुपरटेक गोल्फ विलेज, टीएस-05, सेक्टर	00.00.2022	रू.5,69,982.16 (रूपय पाँच लाख उनहत्तर हजार नौ सौ			
	1. सजय कुमार राय 2. कुसुम राव	सुपरटक गाल्फा वलज, टाएस-05, सक्टर 22डी, बेईडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर		पांच लाख उनहत्तर हजार ना सा बयासी और सोलह पैसे मात्र)			
	∠. कुसुम राथ						
9		-201303, उत्तर प्रदेश	04.09.2023	12.01.2024 के अनुसार			
IJ	कर्ज खाता क्र.HHLDCP00493701	प्रॉप नं. 135 (पश्चिमी भाग), पहली मंजिल,	04.09.2023	रू.16,60,697.08 (रूपये			
	1. अमित कुमार	खसरा नं.4, मिन 29, पुराना अनारकली, गाँव		सोलह लाख साठ हजार छ सौ			
	2. रीता	खुरेजी खास, शाहदरा, नई दिल्ली -110051		सत्तानवे और आठ पैसे मात्र)			
	3. सनथ कुमार (गारंटर)	 ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में अ		17.01.2024 के अनुसार			

िलिखे नाम वाला उधार लेने वाला (ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं। तथा में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पानेवाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले (लो) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले (लो) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवालो को अधिनियम की धारा 13(2)के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को द्रष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवन करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अधतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्को सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने/ उनके पूर्ण दायित्वोका निर्वहन करे, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी ा कृपया ध्वान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप -धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार,'' कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधी के अंदर सुरक्षित आस्ति को मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपति का मोचन करने के लिए पात्र नही हो सकता "

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13 (2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करनेसे प्रतिबंधित है ।

स्थानः ग्रेटर नोएडा/नोएडा/गाज़ियाबाद/गौतम बुद्ध नगर/नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी कृते इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

# PTC India Financial Services Limited



													<i>,</i>		
L														(₹ in lacs)	
L					Sta	andalone	ndalone			Consolidated					
L	S.	Particulars	Quarter ended			Nine mor	Nine months ended Year ended		Quarter ended			Nine months ended		Year ended	
L	No.		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
L			31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023	31.12. 2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12. 2022	31.03.2023	
L	1	Total income from operations	20,432.20	19,024.54	19,430.65	58,431.94	59,713.35	79,088.21	20,432.20	19,024.54	19,430.65	58,431.94	59,713.35	79,088.21	
	2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	6,748.20	7,999.03	4,897.07	19,671.27	18,691.33	23,236.80	6,748.20	7,999.03	4,897.07	19,671.27	18,691.33	23,236.80	
	3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6,748.20	7,999.03	4,897.07	19,671.27	18,691.33	23,236.80	6,748.20	7,999.03	4,897.07	19,671.27	18,691.33	23,236.80	
	4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5,036.80	5,976.89	3,617.57	14,689.95	13,939.81	17,580.72	5,036.80	5,976.89	3,617.57	14,689.95	13,939.81	17,580.72	
	5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4,995.38	5,961.83	3,599.02	14.616.06	13,972.59	17.623.09	4,995.38	5,961.83	3,599.02	14,616.06	13,972.59	17,623.09	
	6	Equity Share Capital	64,228.33	64.228.33	64,228.33	64.228.33	64,228.33	64,228.33	64,228.33	64.228.33	64,228.33	64.228.33	64,228.33	64,228.33	
	7	Reserves (excluding revaluation reserves as per balance sheet)	serves (excluding revaluation reserves as		1,80,045.79 (as At 31.03.2023)					1,80,045.79 (as A					
	8	Earnings per share (not annualised) (Face value ₹ 10 per share) in ₹													
		- Basic	0.78	0.93	0.56	2.29	2.17	2.74	0.78	0.93	0.56	2.29	2.17	2.74	
		- Diluted	0.78	0.93	0.56	2.29	2.17	2.74	0.78	0.93	0.56	2.29	2.17	2.74	
	·														

Note :

Place: New Delhi

Dated : January 31, 2024

The above is an extract of the detailed format filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results is available on the Stock Exchange websites of NSE and BSE at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and Company's website at http://www.ptcfinancial.com/financialinformation.html.

For and on behalf of the Board of Directors

Mahendra Lodha Whole-time Director

## (CIN: L65999DL2006PLC153373)

Registered Office: 7th Floor, Telephone Exchange Building, 8 Bhikaji Cama Place,

New Delhi - 110066, India

Board: +91 11 26737300 / 26737400 Fax: 26737373 / 26737374

Website: www.ptcfinancial.com, E-mail: info@ptcfinancial.com